



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2014/पौष 8, 1936

No. 699]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2014/PAUSHA 8, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2014

सं. 37/2014-सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 923(अ).—**केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“तालिका

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0101	सभी माल	0.0
2	010221	सभी माल	0.0
3	010229 से 010290	सभी माल	0.0
4	0103 से 0104	सभी माल	0.0
5	010599	सभी माल	12.0
6	0106	सभी माल	0.0

7	0201 से 0206	सभी माल	0.0
8	020724 से 0210 (सिवाय 020743 and 020753)	सभी माल	0.0
9	0301	सभी माल	0.0
10	030213 से 030222	सभी माल	0.0
11	030224 से 030229	सभी माल	0.0
12	030233 से 030239	सभी माल	0.0
13	030242	सभी माल	12.0
14	030245 से 030247	सभी माल	12.0
15	030252 से 030253	सभी माल	0.0
16	030254 से 030273	सभी माल	12.0
17	030274	सभी माल	0.0
18	030279	सभी माल	12.0
19	030281	सभी माल	0.0
20	030282 से 030289	सभी माल	12.0
21	030290 से 030312	सभी माल	0.0
22	030313	सभी माल	0.0
23	030319 से 030333	सभी माल	0.0
24	030343 से 030346	सभी माल	0.0
25	030349	सभी माल	8.0
26	030351	सभी माल	0.0
27	030357	सभी माल	8.0
28	030363 से 030366	सभी माल	0.0
29	030381	सभी माल	0.0
30	030383	सभी माल	8.0
31	030384	सभी माल	0.0
32	030390	सभी माल	0.0
33	030520	सभी माल	0.0
34	030541 से 030562	सभी माल	0.0
35	030564 से 030612	सभी माल	0.0
36	030619	सभी माल	0.0
37	030625	सभी माल	0.0
38	030629	सभी माल	0.0
39	0307 से 0308	सभी माल	0.0
40	0403	सभी माल	0.0
41	040490	सभी माल	0.0
42	040610 से 040640	सभी माल	0.0

43	0407	सभी माल	10.0
44	0408	सभी माल	12.0
45	0410	सभी माल	0.0
46	0501 से 0507	सभी माल	0.0
47	05080010	सभी माल	0.0
48	05080020 से 05119999	सभी माल	0.0
49	060110	सभी माल	2.0
50	060120 से 060240	सभी माल	0.0
51	060290	सभी माल	2.0
52	070390	सभी माल	0.0
53	070420 से 070529	सभी माल	0.0
54	070920	सभी माल	0.0
55	070940 से 070959	सभी माल	0.0
56	070970 से 070999	सभी माल	0.0
57	071030	सभी माल	0.0
58	0711	सभी माल	0.0
59	071231 से 071239	सभी माल	0.0
60	071320 से 071360	सभी माल	0.0
61	07139010	सभी माल	0.0
62	07139090	सभी माल	0.0
63	071420 से 071490	सभी माल	0.0
64	080121 से 080122	सभी माल	0.0
65	080131	सभी माल	0.0
66	080211	सभी माल	0.0
67	080221 से 080252	सभी माल	0.0
68	080410 से 080420	सभी माल	0.0
69	08043000	एक्सआईएनएप्पल	15.0
70	080440	सभी माल	0.0
71	080520	सभी माल	12.0
72	080711	सभी माल	8.0
73	080720	सभी माल	8.0
74	080830 से 080910	सभी माल	0.0
75	080930	सभी माल	0.0
76	080940	सभी माल	0.0
77	081010 से 081050 (सिवाय 081030)	सभी माल	0.0
78	081030	सभी माल	0.0

79	081060 से 081090	सभी माल	0.0
80	0811	सभी माल	0.0
81	081320	सभी माल	0.0
82	081330	सभी माल	8.0
83	0814	सभी माल	0.0
84	090111	सभी माल	70.0
85	090240	सभी माल	70.0
86	0903	सभी माल	0.0
87	090411	सभी माल	58.0
88	0906	सभी माल	0.0
89	0907	सभी माल	13.0
90	090821 से 090822	सभी माल	12.0
91	09096111 से 09096129	सभी माल	0.0
92	09096131 से 09096149	सभी माल	8.0
93	09096110 से 09096120	सभी माल	0.0
94	09096130 से 09096140	सभी माल	8.0
95	090940 से 090950	सभी माल	8.0
96	091020	सभी माल	8.0
97	1002 से 1004	सभी माल	0.0
98	100810	सभी माल	0.0
99	100830 से 100890	सभी माल	0.0
100	11029010	सभी माल	8.0
101	120910 से 120930	सभी माल	0.0
102	120991	सभी माल	2.0
103	120999	सभी माल	0.0
104	121010	सभी माल	8.0
105	121120	सभी माल	0.0
106	121130 से 121140	सभी माल	0.0
107	12119011 से 12119049	नद्यपान नई जड़ों से सूखे या न/कुचलेपाउडर के / सभी मालसिवाय अन्य	3.0
108	12119049	नद्यपान नई जड़ों से पाउडर/सूखे या न कुचले/	0.0
109	12119050 से 12119099	सभी माल	3.0
110	121221 से 121229	सभी माल	8.0
111	121291 से 121490	सभी माल	0.0
112	130120	सभी माल	0.0
113	130190 (सिवाय 13019022)	लाख के अलावा अन्य सभी माल	8.0
114	13019022	सभी माल	5.0

115	13019099	लाख	0.0
116	130211 से 130213	सभी माल	0.0
117	130219 से 130220	सभी माल	0.0
118	130231 से 130239	सभी माल	0.0
119	140190 से 140420	सभी माल	0.0
120	140490	सभी सब्जी सामान झाड़ू या ब्रश के रूप से इस्तेमाल सामग्री के अलावा अन्य सभी मालमकई, जैसे झाड़ू) रूप से रंगाई या कमाना में मुख्य (पि ावा आदि सामग्री प्रकार की कच्ची सब्जीप्रयुक्त	8.0
121	14049090	सभी सब्जी सामान झाड़ू या ब्रश के रूप से इस्तेमाल सामग्री के अलावा अन्य सभी मालमकई, जैसे झाड़ू) रूप से रंगाई या कमाना में मुख्य (पि ावा आदि सामग्री प्रकार की कच्ची सब्जीप्रयुक्त	0.0
122	1501	सभी माल	0.0
123	1502	सभी माल	0.0
124	1503 से 1504	सभी माल	0.0
125	1505	सभी माल	3.0
126	1506	सभी माल	0.0
127	150910	सभी माल	0.0
128	150990	सभी माल	0.0
129	151110	सभी माल	56.0
130	151190	सभी माल	66.0
131	15159091	तुंग तेल और उसके खाद्य ग्रेड के भाग	0.0
132	15159099	खाद्य ग्रेड भाग के सिवाय तुंग तेल और उसके भाग	0.0
133	151610	सभी माल	8.0
134	15132110	सभी माल	70.0
135	15132910	सभी माल	70.0
136	15171021	सभी माल	60.0
137	15180011	सभी माल	8.0
138	15180019	सभी माल	8.0
139	15180021	सभी माल	8.0
140	15180029	सभी माल	8.0
141	15180031	सभी माल	8.0
142	15180039	सभी माल	8.0
143	15180040	सभी माल	8.0
144	1521	सभी माल	8.0
145	1522	सभी माल	0.0
146	160220 से 160231	सभी माल	12.0

147	160239	सभी माल	0.0
148	160249 से 160300	सभी माल	0.0
149	160411 से 160413	सभी माल	8.0
150	160415 से 160416	सभी माल	8.0
151	160417 से 160419	सभी माल	0.0
152	160420	सभी माल	8.0
153	160510	सभी माल	0.0
154	160540 से 160590	सभी माल	0.0
155	170211 से 170219	सभी माल	0.0
156	170220	सभी माल	0.0
157	170230 से 170240	सभी माल	8.0
158	170250 से 170290	सभी माल	0.0
159	170310	सभी माल	2.0
160	170390	सभी माल	0.0
161	1704	सभी माल	0.0
162	1801 से 1802	सभी माल	0.0
163	1803	सभी माल	12.0
164	180400 से 180620	सभी माल	8.0
165	180631 से 180632	सभी माल	0.0
166	190110 से 190120	सभी माल	0.0
167	190190	सभी माल	8.0
168	190211 से 190220	सभी माल	0.0
169	190230 से 190240	सभी माल	8.0
170	190410	सभी माल	0.0
171	190430	सभी माल	0.0
172	190510 से 190531	सभी माल	0.0
173	190532	सभी माल	8.0
174	190540	सभी माल	0.0
175	190590	सभी माल	8.0
176	2001	सभी माल	0.0
177	200290	सभी माल	8.0
178	20039090	सभी माल	0.0
179	200490	सभी माल	0.0
180	200560 से 200570	सभी माल	0.0
181	200710 से 200820	सभी माल	0.0
182	200870 से 200880	सभी माल	0.0
183	200912	सभी माल	0.0

184	200921 से 200941	सभी माल	0.0
185	200961 से 200989	सभी माल	0.0
186	200990	सभी माल	8.0
187	210210 से 210610	सभी माल	0.0
188	220110 से 220210	सभी माल	0.0
189	220290	सभी माल	8.0
190	220720	सभी माल	0.0
191	2209	सभी माल	8.0
192	230110	सभी माल	0.0
193	230120	सभी माल	5.0
194	2302 से 2303	सभी माल	0.0
195	2307 से 2308	सभी माल	0.0
196	230910	सभी माल	0.0
197	2501 से 2514	सभी माल	0.0
198	251511 से 251512	सभी माल	6.0
199	251520	सभी माल	2.0
200	2516	सभी माल	0.0
201	2517 से 2521	सभी माल	0.0
202	252210	सभी माल	5.0
203	252220 से 252230	सभी माल	0.0
204	252310 से 252321	सभी माल	6.0
205	252329	सभी माल	0.0
206	252330	सभी माल	2.0
207	252390	सभी माल	6.0
208	2524	सभी माल	0.0
209	2525 से 2530	सभी माल	0.0
210	2601 से 2617	सभी माल	0.0
211	2618 से 2619	सभी माल	0.0
212	262011 से 262019	सभी माल	0.0
213	262021 से 262029	सभी माल	0.0
214	262030	सभी माल	0.0
215	262040 से 262190	सभी माल	0.0
216	270111 से 270119	सभी माल	0.0
217	270120 से 270820	सभी माल	0.0
218	2709	सभी माल	5.0
219	271111 से 271113	सभी माल	0.0
220	271119	सभी माल	0.0

221	271121	सभी माल	5.0
222	2714 से 2715	सभी माल	0.0
223	2716	सभी माल	0.0
224	2801 से 2802	सभी माल	0.0
225	2803	सभी माल	5.0
226	280410	सभी माल	0.0
227	280421	सभी माल	5.0
228	280429 से 280540	सभी माल	0.0
229	2806 से 2813 (सिवाय 28100020)	सभी माल	0.0
230	28100020	सभी माल	0.0
231	2814	सभी माल	0.0
232	281511 से 281512	सभी माल	5.0
233	281520 से 281640	सभी माल	0.0
234	28170020	सभी माल	2.0
235	2818 से 2822 (सिवाय 28182010)	सभी माल	0.0
236	28182010	सभी माल	0.0
237	28230010	सभी माल	0.0
238	28230090	सभी माल	0.0
239	282410	सभी माल	5.0
240	282490 से 285300	सभी माल	0.0
241	290110 से 290230	सभी माल	0.0
242	290241 से 290242	सभी माल	5.0
243	290243	सभी माल	0.0
244	290244	सभी माल	5.0
245	290250	सभी माल	0.0
246	290260 से 290290	सभी माल	0.0
247	29031110	सभी माल	0.0
248	29031120	सभी माल	0.0
249	290312	सभी माल	0.0
250	290313	सभी माल	5.0
251	290314	सभी माल	0.0
252	290315	सभी माल	0.0
253	290319	सभी माल	0.0
254	290321	सभी माल	0.0
255	290322	सभी माल	0.0
256	290323	सभी माल	0.0
257	290329	सभी माल	5.0



258	290331 से 290381	सभी माल	0.0
259	290382 से 290389	सभी माल	5.0
260	290391 से 290392	सभी माल	0.0
261	290399	सभी माल	5.0
262	2904	सभी माल	0.0
263	290511 से 290512	सभी माल	5.0
264	290513	सभी माल	0.0
265	290514	सभी माल	5.0
266	290516 से 290517	सभी माल	0.0
267	29051910 से 29051990	संतृप्त पेंटानॉल बंधी और तत्सं ( हलएमाइल एल्को) आइसोमर के सिवाय सभी माल	5.0
268	29051990	पेंटानॉल और आइसोमर (हलएमाइल एल्को)	0.0
269	290522	सभी माल	0.0
270	290529 से 290539	सभी माल	5.0
271	290541 से 290542	सभी माल	0.0
272	290543 से 290544	सभी माल	0.0
273	290545 से 290549	सभी माल	5.0
274	290551 से 290611	सभी माल	0.0
275	290612	सभी माल	2.0
276	290613 से 290621	सभी माल	0.0
277	290629 से 290711	सभी माल	5.0
278	290712	सभी माल	0.0
279	290713	सभी माल	2.0
280	290715	सभी माल	0.0
281	290719	एक्सीनॉल और उनके लवण के सिवाय सभी माल	2.0
282	29071990	एक्सीनॉल और उनके लवण	0.0
283	290721 से 290722	सभी माल	0.0
284	290723	सभी माल	0.0
285	290729	सभी माल	5.0
286	290811	सभी माल	0.0
287	290819	डेरिवेटिव युक्त केवल हेलोजन सब्सीट्यूट और उनके लवण के सिवाय अन्य सभी माल	5.0
288	290819	डेरिवेटिव युक्त केवल हेलोजन सब्सीट्यूट और उनके लवण (आईएसओ) रोफनोल के सिवायपेंटाक्लो)	0.0
289	290891	सभी माल	5.0
290	290892 से 290911	सभी माल	0.0
291	290919	सभी माल	5.0
292	290920	सभी माल	0.0

293	290930	सभी माल	5.0
294	290941 से 290944	सभी माल	0.0
295	290949	सभी माल	5.0
296	290950 से 291020	सभी माल	0.0
297	291030	सभी माल	0.0
298	291040 से 291090	सभी माल	5.0
299	291100 से 291212	सभी माल	0.0
300	291219	बूटानॉल के ( आइसोमरसामान्य ,बूटाइरलडिहाइड) सभी मालसिवाय अन्य	5.0
301	29121990	बूटानॉल ( आइसोमरसामान्य ,बूटाइरलडिहाइड)	0.0
302	291221	सभी माल	2.0
303	291229	सभी माल	0.0
304	291241 से 291300	सभी माल	0.0
305	291411	सभी माल	6.0
306	291412 से 291413	सभी माल	2.0
307	291419	सभी माल	5.0
308	29142921 से 29142922	सभी माल	0.0
309	291422	सभी माल	2.0
310	291423	सभी माल	0.0
311	29142910	सभी माल	5.0
312	29142990	सभी माल	5.0
313	291431	सभी माल	0.0
314	291439	सभी माल	5.0
315	291440 से 291450	सभी माल	2.0
316	291461	सभी माल	0.0
317	291469	सभी माल	5.0
318	291470 से 291513	सभी माल	0.0
319	291521 से 291529	सोडियम एसीटेट और कोबाल्ट एसीटेट के सिवाय अन्य सभी माल	5.0
320	29152990	सोडियम एसीटेट और कोबाल्ट एसीटेट	0.0
321	291531	सभी माल	5.0
322	291532 से 291560	सभी माल	0.0
323	291570	सभी माल	5.0
324	29159030	सभी माल	6.0
325	291611 से 291612	सभी माल	5.0
326	291615	सभी माल	0.0
327	291616 से 291619	सभी माल	6.0
328	291620	सभी माल	0.0

329	291631	सभी माल	5.0
330	291632	सभी माल	0.0
331	291634	सभी माल	5.0
332	29163990	फेनाइलेसटिक एसिड के इस्टर्स	0.0
333	291636	सभी माल	0.0
334	291639	फेनाइलेसटिक एसिड के इस्टर्स के सिवाय सभी माल	2.0
335	291711 से 291713	सभी माल	0.0
336	291714	सभी माल	2.0
337	291719	सभी माल	5.0
338	291720	सभी माल	0.0
339	291732	सभी माल	5.0
340	291733 से 291735	सभी माल	2.0
341	291736 से 291739	सभी माल	5.0
342	291811 से 291812	सभी माल	0.0
343	29181310	सभी माल	6.0
344	29181390	सभी माल	6.0
345	291814 से 291815	सभी माल	0.0
346	29181690	सभी माल	6.0
347	291818 से 291819	सभी माल	0.0
348	291821	सभी माल	2.0
349	291822 से 291830	सभी माल	5.0
350	291891 से 292019	सभी माल	0.0
351	292090	सभी माल	5.0
352	2921 से 2925	सभी माल	0.0
353	292610	सभी माल	0.0
354	292620 से 293020	सभी माल	0.0
355	293030	सभी माल	2.0
356	293040	सभी माल	0.0
357	29305000	सभी माल	0.0
358	29309010	सभी माल	2.0
359	29309030	सभी माल	2.0
360	29309050	सभी माल	2.0
361	29309060	सभी माल	2.0
362	29309070	सभी माल	2.0
363	29309080	सभी माल	2.0
364	29309091	सभी माल	2.0
365	29309099	अन्य डियियोकार्बोनेट्स के सिवाय (एनथेट्स)	2.0

366	29309099	डिथियोकार्बोनेट्स (एनथेट्स)	0.0
367	2931	सभी माल	5.0
368	293211 से 293369	सभी माल	0.0
369	293371	सभी माल	6.0
370	293372 से 294200	सभी माल	0.0
371	3001 से 3002	सभी माल	0.0
372	300310 से 300320	सभी माल	6.0
373	300331	सभी माल	0.0
374	300339 से 300340	सभी माल	6.0
375	300390	सभी माल	0.0
376	300410 से 300431	सभी माल	6.0
377	300432	सभी माल	0.0
378	300439 से 300490	सभी माल	6.0
379	300510 से 300650	सभी माल	0.0
380	300660	सभी माल	0.0
381	300670	सभी माल	0.0
382	300691	सभी माल	6.0
383	300692	सभी माल	0.0
384	3101	सभी माल	5.0
385	310210	सभी माल	5.0
386	310221	सभी माल	0.0
387	310229 से 310240	सभी माल	5.0
388	310250	सभी माल	0.0
389	310260 से 310420	सभी माल	5.0
390	310430	सभी माल	0.0
391	310490 से 310510	सभी माल	5.0
392	310520 से 310590	सभी माल	0.0
393	3201	सभी माल	0.0
394	320210	सभी माल	5.0
395	320290 से 320420	सभी माल	0.0
396	320490	सभी माल	5.0
397	3205	सभी माल	0.0
398	320611 से 320619	सभी माल	0.0
399	320620	सभी माल	0.0
400	320641	सभी माल	5.0
401	320642	सभी माल	0.0
402	320649	पिगमेंट्स और कोंड यौगिकों और पिगमेंट की तैयारी	6.0

		के आधार पर हैक्ससाइनोफेरल आधारित फेरोसाइनाइड्स के सिवाय (फेरीसाइनाइड्स) सभी माल	
403	32064990	पिगमेंट्स और कॉड यौगिकों और पिगमेंट की तैयारी के आधार पर हैक्ससाइनोफेरल आधारित फेरोसाइनाइड्स (फेरीसाइनाइड्स)	0.0
404	320650 से 320730	सभी माल	0.0
405	320740	सभी माल	0.0
406	320810 से 320910	सभी माल	0.0
407	320990	सभी माल	2.0
408	32100090	सभी माल	6.0
409	32110000 से 32129010	सभी माल	0.0
410	32129020	सभी माल	0.0
411	32129030 से 32141000	सभी माल	0.0
412	321490	सभी माल	6.0
413	3215	सभी माल	0.0
414	330112 से 330113	सभी माल	0.0
415	330119	बेरगामोट के आवश्यक तेल और आवश्यक तेलों का चूना के सिवाय सभी माल	8.0
416	33011990	बेरगामोट के आवश्यक तेल और आवश्यक तेलों का चूना	0.0
417	330124 से 330129	सभी माल	8.0
418	330130 से 330190	सभी माल	0.0
419	330210	सभी माल	13.0
420	330290 से 330300	सभी माल	6.0
421	3304 से 3305	सभी माल	0.0
422	330610	सभी माल	6.0
423	330620 से 330720	सभी माल	0.0
424	330730	सभी माल	2.0
425	330741	सभी माल	6.0
426	330749 से 330790	सभी माल	0.0
427	340111	सभी माल	0.0
428	340119	सभी माल	6.0
429	340120 से 340211	सभी माल	0.0
430	340212 से 340213	सभी माल	6.0
431	340219 से 340290	सभी माल	0.0
432	340311	सभी माल	0.0
433	340319	सभी माल	5.0
434	340391	सभी माल	0.0
435	340399	सभी माल	5.0

436	3404	सभी माल	0.0
437	340510 से 340530	सभी माल	6.0
438	340540 से 340590	सभी माल	0.0
439	3406	सभी माल	6.0
440	3407	सभी माल	0.0
441	3501	सभी माल	8.0
442	3502 से 3503	सभी माल	0.0
443	35040010	सभी माल	8.0
444	35040091	सभी माल	8.0
445	35040099 से 35052000	सभी माल	8.0
446	350610 से 350691	सभी माल	6.0
447	350699 से 350790	सभी माल	0.0
448	3601 से 3604	सभी माल	0.0
449	3606	सभी माल	0.0
450	370110	सभी माल	0.0
451	370120	सभी माल	0.0
452	370130 से 370710	सभी माल	0.0
453	370790	सभी माल	6.0
454	3801 से 3807	सभी माल	0.0
455	38085000	सभी माल	6.0
456	38085000	सभी माल	2.0
457	38085000	कीटनाशकहरबीसाइड, फंगीसाइड, विरोधी नियामकों अंकुरण उत्पादों और पौधा विकास संयंत्र डिसिनफेक्टेंट, के सिवाय	0.0
458	380891	सभी माल	6.0
459	380892	सभी माल	2.0
460	380893	सभी माल	6.0
461	38089400	सभी माल	6.0
462	380899	सभी माल	0.0
463	380910	सभी माल	0.0
464	380991 से 380992	सभी माल	0.0
465	380993	सभी माल	5.0
466	3810	सभी माल	0.0
467	3811	सभी माल	0.0
468	381210	सभी माल	0.0
469	381230	सभी माल	0.0
470	3813 से 3814	सभी माल	0.0

471	3815 से 3816	सभी माल	0.0
472	3817	सभी माल	5.0
473	3818	सभी माल	0.0
474	3819 से 3822	सभी माल	0.0
475	38231111 से 38231119	सभी माल	8.0
476	38231190	सभी माल	8.0
477	382312 से 382313	सभी माल	0.0
478	382319	सभी माल	8.0
479	382370	सभी माल	0.0
480	382410 से 382450	सभी माल	0.0
481	382460	सभी माल	0.0
482	382471 से 382490	सभी माल	0.0
483	3825	सभी माल	0.0
484	390110 से 390120	सभी माल	5.0
485	390130	सभी माल	2.0
486	390190 से 390210	सभी माल	5.0
487	390220	सभी माल	0.0
488	390230	सभी माल	5.0
489	390290	सभी माल	2.0
490	390311 से 390410	सभी माल	5.0
491	390421	सभी माल	2.0
492	390422	सभी माल	5.0
493	390430	सभी माल	2.0
494	390440 से 390461	सभी माल	0.0
495	390469 से 390521	सभी माल	2.0
496	390529	सभी माल	5.0
497	390530 से 390599	सभी माल	0.0
498	3906	सभी माल	5.0
499	390710 से 390720	सभी माल	0.0
500	390730	सभी माल	2.0
501	390740	सभी माल	2.0
502	390750	सभी माल	2.0
503	390760	सभी माल	5.0
504	390770	सभी माल	2.0
505	390791	सभी माल	5.0
506	390799	सभी माल	2.0
507	3908	सभी माल	6.0

508	390910 से 390940	सभी माल	5.0
509	390950 से 391400	सभी माल	0.0
510	391610	सभी माल	6.0
511	391620	सभी माल	2.0
512	391690	सभी माल	6.0
513	391710 से 391729	सभी माल	2.0
514	391731	सभी माल	6.0
515	391732 से 391739	सभी माल	2.0
516	391740 से 392061	सभी माल	6.0
517	392062	सभी माल	2.0
518	392063 से 392071	सभी माल	6.0
519	392079	सभी माल	2.0
520	392091	सभी माल	6.0
521	392092 से 392094	सभी माल	2.0
522	392111 से 392112	सभी माल	6.0
523	392114 से 392119	सभी माल	2.0
524	3922 से 3923	सभी माल	6.0
525	392490	सभी माल	6.0
526	392510	सभी माल	2.0
527	392520 से 392620	सभी माल	6.0
528	392640 से 392690	सभी माल	6.0
529	400130 से 400220	सभी माल	0.0
530	400231	सभी माल	0.0
531	400239 से 400260	सभी माल	0.0
532	400270	सभी माल	6.0
533	400280 से 400299	सभी माल	0.0
534	4003	सभी माल	6.0
535	400400 से 400510	सभी माल	0.0
536	400520 से 400599	सभी माल	6.0
537	400610	सभी माल	2.0
538	400690 से 400819	सभी माल	6.0
539	400829	सभी माल	6.0
540	400911	सभी माल	2.0
541	400912	सभी माल	0.0
542	400921	सभी माल	2.0
543	400922	सभी माल	0.0
544	400931	सभी माल	6.0



545	400932	सभी माल	0.0
546	400941 से 400942	सभी माल	6.0
547	401011 से 401031	सभी माल	0.0
548	401032	सभी माल	6.0
549	401033	सभी माल	2.0
550	401034 से 401035	सभी माल	6.0
551	401036	सभी माल	2.0
552	401039	सभी माल	0.0
553	401110 से 401120	सभी माल	6.0
554	401130	सभी माल	0.0
555	401140 से 401150	सभी माल	6.0
556	401161 से 401199	सभी माल	0.0
557	401211 से 401212	सभी माल	6.0
558	401213	सभी माल	0.0
559	401219 से 401290	सभी माल	6.0
560	401310 से 401320	सभी माल	0.0
561	401390	सभी माल	2.0
562	401410	सभी माल	0.0
563	401490 से 401692	सभी माल	0.0
564	401693	सभी माल	6.0
565	401694 से 401695	सभी माल	0.0
566	401699	सभी माल	6.0
567	4017	सभी माल	0.0
568	4101 से 4103	सभी माल	0.0
569	4104 से 4115	सभी माल	0.0
570	4201 से 4205	सभी माल	6.0
571	4206	सभी माल	2.0
572	4301 से 4302	सभी माल	0.0
573	4303 से 4304	सभी माल	0.0
574	4401 से 4403	सभी माल	0.0
575	4404 से 4405	सभी माल	0.0
576	4406	सभी माल	6.0
577	4407 से 4410	सभी माल	0.0
578	4411	सभी माल	2.0
579	4412 से 4421	सभी माल	0.0
580	45	सभी माल	0.0
581	46	सभी माल	0.0

582	4701 से 4706	सभी माल	0.0
583	470710	सभी माल	0.0
584	470720 से 470730	सभी माल	2.0
585	470790	सभी माल	0.0
586	4801	सभी माल	0.0
587	4802	सभी माल	0.0
588	4803	सभी माल	6.0
589	480411 से 480449	सभी माल	0.0
590	480451	सभी माल	2.0
591	480452 से 480525	सभी माल	0.0
592	480530	सभी माल	2.0
593	480540 से 480630	सभी माल	0.0
594	480640 से 480700	सभी माल	2.0
595	480810	सभी माल	0.0
596	48084010	सभी माल	2.0
597	48084090	सभी माल	0.0
598	481013	सभी माल	6.0
599	481014	सभी माल	2.0
600	481019 से 481022	सभी माल	0.0
601	481029 से 481032	सभी माल	2.0
602	481039 से 481099	सभी माल	0.0
603	481110	सभी माल	2.0
604	481141 से 481149	सभी माल	6.0
605	481151 से 481159	सभी माल	0.0
606	481160	सभी माल	2.0
607	481190 से 481690	सभी माल	0.0
608	481710	सभी माल	6.0
609	481720	सभी माल	0.0
610	481730	सभी माल	6.0
611	481810 से 481910	सभी माल	0.0
612	481920 से 481930	सभी माल	2.0
613	481940 से 482090	सभी माल	0.0
614	482210 से 482340	सभी माल	0.0
615	482361 से 482369	सभी माल	6.0
616	482370 से 482390	सभी माल	0.0
617	49011010	सभी माल	0.0
618	49011020 से 49019100	सभी माल	0.0

619	490199	सभी माल	6.0
620	4902	सभी माल	0.0
621	4903	सभी माल	0.0
622	4904 से 4906	सभी माल	0.0
623	4907	सभी माल	0.0
624	4908	सभी माल	6.0
625	4909 से 4910	सभी माल	0.0
626	491110	सभी माल	6.0
627	49119100 से 49119910	सभी माल	0.0
628	49119920	सभी माल	0.0
629	49119990	सभी माल	0.0
630	50010000 से 50020020	सभी माल	0.0
631	50020030 से 50030090	सभी माल	0.0
632	5004 से 5007	सभी माल	0.0
633	5101 से 5102	सभी माल	0.0
634	5103	सभी माल	0.0
635	510400 से 510521	सभी माल	0.0
636	51052910	सभी माल	5.0
637	51052990	सभी माल	2.0
638	510531 से 510620	सभी माल	0.0
639	510720	सभी माल	2.0
640	5108 से 5110	सभी माल	0.0
641	511111 से 511119	सभी माल	6.0
642	511120	सभी माल	2.0
643	511130	सभी माल	6.0
644	511190	सभी माल	2.0
645	511211 से 511219	सभी माल	6.0
646	511220	सभी माल	0.0
647	511230	सभी माल	6.0
648	511290 से 511300	सभी माल	0.0
649	5201	सभी माल	2.0
650	5202	सभी माल	3.0
651	5203	सभी माल	8.0
652	5204 से 5207	सभी माल	0.0
653	520812 से 520813	सभी माल	6.0
654	520819	सभी माल	0.0
655	520821 से 520831	सभी माल	6.0

656	520833 से 520843	सभी माल	6.0
657	520849	सभी माल	2.0
658	520851	सभी माल	6.0
659	520859	सभी माल	6.0
660	520911 से 520919	सभी माल	2.0
661	520921 से 520941	सभी माल	6.0
662	520943 से 521011	सभी माल	6.0
663	521019	सभी माल	2.0
664	521021 से 521029	सभी माल	6.0
665	521032 से 521039	सभी माल	6.0
666	521049 से 521059	सभी माल	6.0
667	521111 से 521119	सभी माल	2.0
668	521120 से 521225	सभी माल	6.0
669	5301	सभी माल	0.0
670	5302	सभी माल	0.0
671	5303	सभी माल	0.0
672	53050010 से 53050040	सभी माल	2.0
673	53050050	सभी माल	0.0
674	53050090	सिसल फाइबर रॉ के जीनस एग्वे, एलाय फाइबर, -टाइल फाइबरटैक्सरामिये या चायन ग्रास के सिवाय सभी माल	2.0
675	53050090	सिसल फाइबर रॉ के जीनस एग्वे, एलाय फाइबर, टाइल फाइबरटैक्सरामिये या चायन ग्रास	0.0
676	5306	सभी माल	2.0
677	5307	सभी माल	0.0
678	530810	सभी माल	2.0
679	530820 से 530890	सभी माल	0.0
680	530911 से 530919	सभी माल	6.0
681	530921 से 531090	सभी माल	0.0
682	5311	सभी माल	2.0
683	5401	सभी माल	2.0
684	540211 से 540219	सभी माल	6.0
685	540220	सभी माल	5.0
686	540231 से 540232	सभी माल	6.0
687	540233	सभी माल	5.0
688	540234 से 540239	सभी माल	6.0
689	540244	इलॉस्टोमेरिक नायलॉन का धागाबिना, पलॉयमडस/मुड़ा या मुड़े के साथ <= सिंगल, 50 टर्न प्रति मीटर 50	6.0

690	540244	इलॉस्टोमरिक अन्य धागा नॉयलॉन या अन्य) (रपॉलिमाइड्स या पॉलिस्टसिंगलमुड़ा या मुड़े के , टर्न प्रति मीटर से अधिक नहीं 50 साथ.	2.0
691	54024400	पॉलिस्टर के इलॉटोमेरिक यार्न	0.0
692	54024500	सभी माल	6.0
693	54024600	सभी माल	6.0
694	54024700	सभी माल	6.0
695	540248 से 540249	सभी माल	2.0
696	540251	सभी माल	6.0
697	540252	सभी माल	5.0
698	540259 से 540261	सभी माल	6.0
699	540262	सभी माल	5.0
700	540269	सभी माल	6.0
701	5403	सभी माल	0.0
702	540411 से 540419	सभी माल	6.0
703	540490	सभी माल	2.0
704	5405	सभी माल	0.0
705	54060010	सभी माल	2.0
706	54060020	सभी माल	0.0
707	54071016	सभी माल	6.0
708	54071026	सभी माल	6.0
709	54071036	सभी माल	6.0
710	54071046	सभी माल	6.0
711	54071096	सभी माल	6.0
712	540720 से 540730	सभी माल	0.0
713	540741 से 540742	सभी माल	2.0
714	540743	सभी माल	6.0
715	540744 से 540752	सभी माल	2.0
716	540753	सभी माल	6.0
717	540754 से 540772	सभी माल	2.0
718	540773	सभी माल	6.0
719	540774 से 540781	सभी माल	2.0
720	540783	सभी माल	6.0
721	540784	सभी माल	0.0
722	540791 से 540792	सभी माल	2.0
723	540793	सभी माल	6.0
724	540794 से 540822	सभी माल	2.0

725	540823	सभी माल	6.0
726	540824 से 540832	सभी माल	2.0
727	540833	सभी माल	6.0
728	540834	सभी माल	2.0
729	550110	सभी माल	2.0
730	550120	सभी माल	5.0
731	550130 से 550190	सभी माल	6.0
732	5502	सभी माल	0.0
733	550311 से 550319	सभी माल	2.0
734	55032000	सभी माल	6.0
735	550330 से 550340	सभी माल	6.0
736	550390	सभी माल	2.0
737	5504	सभी माल	0.0
738	550510	सभी माल	6.0
739	550520	सभी माल	0.0
740	550610	सभी माल	2.0
741	550620	सभी माल	5.0
742	550630 से 550690	सभी माल	6.0
743	5507	सभी माल	0.0
744	550810	सभी माल	6.0
745	550820 से 550912	सभी माल	0.0
746	550921 से 550922	सभी माल	2.0
747	550931 से 550932	सभी माल	6.0
748	550941 से 550942	सभी माल	0.0
749	550952 से 550953	सभी माल	2.0
750	550959	सभी माल	0.0
751	550961 से 550969	सभी माल	2.0
752	550991 से 550999	सभी माल	0.0
753	551020	सभी माल	0.0
754	551030	सभी माल	2.0
755	5511	सभी माल	2.0
756	5512	सभी माल	6.0
757	551312 से 551319	सभी माल	6.0
758	551323 से 551349	सभी माल	6.0
759	551412 से 551511	सभी माल	6.0
760	551513	सभी माल	6.0
761	551519 से 551521	सभी माल	2.0

762	551522	सभी माल	6.0
763	551529	सभी माल	0.0
764	551591	सभी माल	2.0
765	551599	सभी माल	0.0
766	551611	सभी माल	2.0
767	551612 से 551614	सभी माल	6.0
768	551621	सभी माल	2.0
769	551623 से 551624	सभी माल	6.0
770	551631	सभी माल	0.0
771	551632	सभी माल	2.0
772	551633	सभी माल	6.0
773	551634	सभी माल	2.0
774	551641 से 551644	सभी माल	6.0
775	551691	सभी माल	0.0
776	551692 से 551693	सभी माल	2.0
777	551694	सभी माल	0.0
778	560121 से 560122	सभी माल	0.0
779	560129	सभी माल	2.0
780	560130 से 560290	सभी माल	0.0
781	560311 से 560312	सभी माल	2.0
782	560313 से 560314	सभी माल	0.0
783	560391	सभी माल	2.0
784	560392	सभी माल	0.0
785	560393	सभी माल	2.0
786	560394 से 560410	सभी माल	0.0
787	560490	नकली आंत र रैकेट और नायलॉन पॉलिस्ट (नायलॉन) स विस्को/ पोलियामाइड्सअन्य/ दृढ़ता यार्नके उच्च लेपित रैकेट के नकली आंत रहित /इमप्रेगनेटिड ,रेयान के सिवाय सभी माल	2.0
788	560490	नकली आंत र रैकेट और नायलॉन पॉलिस्ट (नायलॉन) केउच्च दृढ़ता यार्नस विस्को/माइड्स पोलियाअन्य/ लेपित रैकेट के नकली आंत रहित/इमप्रेगनेटिड ,रेयान	0.0
789	560500 से 560749	सभी माल	0.0
790	5607	कोरडेज और जूट और सुतली और शीर्ष रस्सी ,केबल , फाइबर के केबल के टाइल बास्टके टैक्स 5303 0सं सभी मालसिवाय अन्य	2.0
791	56079090	कोरडेज और जूट और सुतली और शीर्ष रस्सी ,लकेब , फाइबर के केबलटाइल बास्टके टैक्स 5303 0सं	0.0
792	560811	सभी माल	2.0

793	560819 से 560890	सभी माल	0.0
794	5609	सभी माल	2.0
795	5701 से 5702	सभी माल	2.0
796	570320 से 570390	सभी माल	2.0
797	5704 से 5705	सभी माल	0.0
798	580110 से 580127	सभी माल	0.0
799	580131 से 580132	सभी माल	2.0
800	580133 से 580190	सभी माल	0.0
801	580211 से 580219	सभी माल	2.0
802	580220 से 581100	सभी माल	0.0
803	5901	सभी माल	0.0
804	590210 से 590220	सभी माल	2.0
805	590290 से 590390	सभी माल	6.0
806	5904 से 5911	सभी माल	0.0
807	600110 से 600122	सभी माल	2.0
808	600129 से 600191	सभी माल	0.0
809	600192	सभी माल	2.0
810	600199 से 600310	सभी माल	0.0
811	600320 से 600330	सभी माल	2.0
812	600340 से 600490	सभी माल	0.0
813	600521 से 600522	सभी माल	2.0
814	600523	सभी माल	0.0
815	600524	सभी माल	2.0
816	600531 से 600533	सभी माल	0.0
817	600534	सभी माल	2.0
818	600541 से 600543	सभी माल	0.0
819	600544	सभी माल	2.0
820	600590	सभी माल	0.0
821	600610	सभी माल	0.0
822	600621 से 600632	सभी माल	0.0
823	600633 से 600690	सभी माल	0.0
824	6101	सभी माल	0.0
825	610220 से 610331	सभी माल	0.0
826	610332	सभी माल	6.0
827	610333	सभी माल	2.0
828	610339 से 610341	सभी माल	0.0
829	610342 से 610343	सभी माल	2.0



830	610349	सभी माल	0.0
831	610413	सभी माल	6.0
832	610419	सभी माल	0.0
833	610422 से 610423	सभी माल	6.0
834	610429 से 610431	सभी माल	0.0
835	610432	सभी माल	6.0
836	610433 से 610441	सभी माल	0.0
837	610442	सभी माल	6.0
838	610444 से 610451	सभी माल	0.0
839	610459 से 610461	सभी माल	0.0
840	610469	सभी माल	0.0
841	610590	सभी माल	2.0
842	610690	सभी माल	2.0
843	610719	सभी माल	0.0
844	610721 से 610722	सभी माल	6.0
845	610729	सभी माल	0.0
846	610791	सभी माल	6.0
847	610799 से 610819	सभी माल	0.0
848	610829	सभी माल	0.0
849	610831 से 610832	सभी माल	6.0
850	610839	सभी माल	0.0
851	610899	सभी माल	0.0
852	611012 से 611019	सभी माल	0.0
853	6111	ऊन पशु बाल केअच्छे/ बच्चों के वस्त्र आदि के सिवाय अन्य सभी माल	6.0
854	61119090	ऊन आदि के वस्त्र पशु बाल के बच्चोंअच्छे/	0.0
855	611211 से 611212	सभी माल	6.0
856	611219	सभी माल	0.0
857	611220 से 611231	सभी माल	2.0
858	611239	सभी माल	0.0
859	611241	सभी माल	2.0
860	611249 से 611300	सभी माल	0.0
861	611420 से 611430	सभी माल	6.0
862	611490 से 611529	सभी माल	0.0
863	611530	सभी माल	2.0
864	611594	सभी माल	0.0
865	611595 से 611596	सभी माल	2.0

866	611599 से 611691	सभी माल	0.0
867	611692 से 611693	सभी माल	6.0
868	611699	सभी माल	2.0
869	611710	सभी माल	6.0
870	611780 से 611790	सभी माल	0.0
871	620111	सभी माल	0.0
872	620112 से 620113	सभी माल	6.0
873	620119 से 620211	सभी माल	0.0
874	620212	सभी माल	2.0
875	620219 से 620291	सभी माल	0.0
876	620292	सभी माल	2.0
877	620299	सभी माल	0.0
878	620311 से 620312	सभी माल	6.0
879	620319	सभी माल	0.0
880	620322 से 620323	सभी माल	6.0
881	620329	सभी माल	0.0
882	620331	सभी माल	6.0
883	620343	सभी माल	6.0
884	620411 से 620412	सभी माल	6.0
885	620421	सभी माल	0.0
886	620422 से 620423	सभी माल	2.0
887	620429 से 620431	सभी माल	0.0
888	620432	सभी माल	6.0
889	620441	सभी माल	0.0
890	620449 से 620451	सभी माल	0.0
891	620452 से 620453	सभी माल	2.0
892	620459	सभी माल	0.0
893	620461	सभी माल	6.0
894	620463	सभी माल	6.0
895	62059090	पुरुषों पशु बालअच्छे/लड़कों के ऊनी शर्ट/	0.0
896	620610 से 620620	सभी माल	0.0
897	620690	सभी माल	0.0
898	620719 से 620722	सभी माल	2.0
899	620729	सभी माल	0.0
900	620791	सभी माल	2.0
901	620799 से 620811	सभी माल	0.0
902	620819	सभी माल	2.0

903	620821 से 620822	सभी माल	6.0
904	620829	सभी माल	0.0
905	620891	सभी माल	6.0
906	620899	सभी माल	0.0
907	620920 से 620930	सभी माल	2.0
908	620990 से 621010	सभी माल	0.0
909	621030	सभी माल	0.0
910	621111 से 621120	सभी माल	0.0
911	621139	सभी माल	0.0
912	621142 से 621143	सभी माल	2.0
913	621149	सभी माल	0.0
914	621290 से 621310	सभी माल	0.0
915	621320 से 621390	रेशम का रूमाल या बेकार रेशम के सिवाय अन्य सभी माल	2.0
916	62139090	रेशम का रूमाल या बेकार रेशम	0.0
917	621410 से 621420	सभी माल	0.0
918	621430	सभी माल	2.0
919	621440	सभी माल	0.0
920	621490	सभी माल	2.0
921	6215	सभी माल	6.0
922	6216 से 6217	सभी माल	2.0
923	630110	सभी माल	0.0
924	630130	सभी माल	0.0
925	630190 से 630210	सभी माल	2.0
926	630222	सभी माल	6.0
927	630229	सभी माल	0.0
928	630232	सभी माल	6.0
929	630239	सभी माल	0.0
930	630240 से 630251	सभी माल	6.0
931	630253	सभी माल	2.0
932	630259	सभी माल	0.0
933	630291 से 630299	सभी माल	0.0
934	6302312	सभी माल	2.0
935	630319	सभी माल	0.0
936	630391 से 630392	सभी माल	2.0
937	630399	सभी माल	0.0
938	630411 से 630419	सभी माल	6.0

939	630491	सभी माल	0.0
940	630492 से 630493	सभी माल	6.0
941	630499 से 630800	सभी माल	0.0
942	6309	सभी माल	6.0
943	6310	सभी माल	0.0
944	640110 से 640212	सभी माल	6.0
945	640220 से 640299	सभी माल	6.0
946	640312	सभी माल	2.0
947	640319 से 640391	बांस के बने हुए जूतेटफार्म जिसे लकड़ी के प्ले/ क धातु टोपी और एक सुरक्षात्म/आंतरिक सोल नहीं है सभी माल के सिवाय अन्य टखने	6.0
948	64039190	बांस के बने हुए जूतेटफार्म जिसे लकड़ी के प्ले/ क धातु टोपी एक सुरक्षात्म/आंतरिक सोल नहीं है और टखने	2.0
949	640399	बांस के बने हुए जूतेटफार्म जिसे लकड़ी के प्ले/ क धातु टोपी और एक सुरक्षात्म/आंतरिक सोल नहीं है सभी माल टखने को कवर नी के सिवाय अन्य	6.0
950	64039990	बांस के बने हुए जूतेटफार्म जिसे लकड़ी के प्ले/ क धातु टोपी और एक सुरक्षात्म/आंतरिक सोल नहीं है टखने को कवर नहीं	2.0
951	6404 से 6406	सभी माल	6.0
952	65	सभी माल	0.0
953	66	सभी माल	0.0
954	670100 से 670210	सभी माल	0.0
955	670290	सभी माल	6.0
956	6703 से 6704	सभी माल	0.0
957	68010000 से 68132010	सभी माल	0.0
958	68132090	सभी माल	6.0
959	681381	सभी माल	0.0
960	681389	सभी माल	6.0
961	6814 से 6815	सभी माल	0.0
962	6901	सभी माल	0.0
963	6902 से 6903	सभी माल	0.0
964	6904 से 6905	सभी माल	0.0
965	6906	सभी माल	6.0
966	6907 से 6908	सभी माल	0.0
967	690911	सभी माल	2.0
968	690912 से 690990	सभी माल	0.0
969	691010	सभी माल	6.0

970	691090 से 691190	सभी माल	0.0
971	6912	सभी माल	6.0
972	691310	सभी माल	2.0
973	691390 से 691490	सभी माल	0.0
974	70010010	सभी माल	0.0
975	70010020 से 70051090	सभी माल	0.0
976	700521 से 700530	सभी माल	6.0
977	700600 से 700711	सभी माल	0.0
978	700719	सभी माल	6.0
979	700729	सभी माल	6.0
980	7008	सभी माल	2.0
981	7009	सभी माल	6.0
982	701010 से 701110	सभी माल	0.0
983	701120	सभी माल	2.0
984	701190 से 701322	सभी माल	0.0
985	701328	सभी माल	6.0
986	701333	सभी माल	0.0
987	701337	सभी माल	6.0
988	701341 से 701342	सभी माल	0.0
989	701349	सभी माल	6.0
990	701391 से 701690	सभी माल	0.0
991	701710	सभी माल	0.0
992	701720 से 701820	सभी माल	0.0
993	701890	सभी माल	6.0
994	7019	सभी माल	0.0
995	70200011	सभी माल	0.0
996	70200012 से 70200019	सभी माल	0.0
997	70200021	सभी माल	0.0
998	70200029 से 70200090	सभी माल	0.0
999	710110	सभी माल	0.0
1000	710121 से 710210	सभी माल	0.0
1001	710221	सभी माल	0.0
1002	710229	सभी माल	0.0
1003	710231	सभी माल	0.0
1004	710239	सभी माल	0.0
1005	710310	सभी माल	0.0
1006	710391	सभी माल	0.0

1007	710399 से 711890	सभी माल	0.0
1008	72	सभी माल	0.0
1009	730110 से 731814	सभी माल	0.0
1010	731815	सभी माल	6.0
1011	731816	सभी माल	0.0
1012	731819	सभी माल	6.0
1013	731821 से 732020	सभी माल	0.0
1014	732111 से 732620	सभी माल	0.0
1015	732690	सभी माल	6.0
1016	7401 से 7402	सभी माल	0.0
1017	740312 से 740329	सभी माल	0.0
1018	7404	सभी माल	5.0
1019	7405 से 7406	सभी माल	0.0
1020	740721 से 740729	सभी माल	0.0
1021	740819	सभी माल	2.0
1022	740821 से 740829	सभी माल	0.0
1023	740911	सभी माल	5.0
1024	740919 से 741022	सभी माल	0.0
1025	7411	सभी माल	0.0
1026	741210	सभी माल	5.0
1027	741220	सभी माल	0.0
1028	7413	सभी माल	6.0
1029	7415 से 7418	सभी माल	0.0
1030	741910	सभी माल	2.0
1031	741991 से 741999	सभी माल	0.0
1032	75	सभी माल	0.0
1033	760120 से 760529	सभी माल	0.0
1034	760612 से 760720	सभी माल	0.0
1035	7608 से 7609	सभी माल	0.0
1036	7610 से 7612	सभी माल	0.0
1037	7613	सभी माल	2.0
1038	7614 से 7616	सभी माल	0.0
1039	7801 से 7804	सभी माल	0.0
1040	7806	सभी माल	0.0
1041	7901 से 7905	सभी माल	0.0
1042	7907	सभी माल	0.0
1043	8001 से 8003	सभी माल	0.0

1044	8007	सभी माल	0.0
1045	810110 से 810197	सभी माल	0.0
1046	810199	सभी माल	2.0
1047	8102 से 8105 (सिवाय 810299, 810390, 81049090 and 810590)	सभी माल	0.0
1048	810299	सभी माल	0.0
1049	810390	सभी माल	0.0
1050	81049090	सभी माल	0.0
1051	810590	सभी माल	2.0
1052	8106 (सिवाय 81060090)	सभी माल	0.0
1053	81060090	सभी माल	0.0
1054	8107 (सिवाय 81079090)	सभी माल	0.0
1055	81079090	सभी माल	0.0
1056	8108 (सिवाय 81089090)	सभी माल	0.0
1057	81089090	सभी माल	0.0
1058	8109 (सिवाय 810990)	सभी माल	0.0
1059	810990	सभी माल	0.0
1060	8110 (सिवाय 811090)	सभी माल	0.0
1061	811090	सभी माल	0.0
1062	8111 (सिवाय 81110090)	सभी माल	0.0
1063	81110090	सभी माल	0.0
1064	811212 से 811213	सभी माल	0.0
1065	811219	सभी माल	2.0
1066	811221 से 811222	सभी माल	0.0
1067	811229	सभी माल	0.0
1068	811251 से 811252	सभी माल	0.0
1069	811259	सभी माल	0.0
1070	811292	सभी माल	0.0
1071	811299 से 811300	सभी माल	0.0
1072	820110 से 820210	सभी माल	0.0
1073	820220	सभी माल	2.0
1074	820231 से 820600	सभी माल	0.0
1075	820713	सभी माल	2.0
1076	820719	सभी माल	0.0
1077	820720	सभी माल	2.0
1078	820730 से 820890	सभी माल	0.0
1079	8209	सभी माल	2.0

1080	8210 से 8212	सभी माल	0.0
1081	8213	सभी माल	2.0
1082	8214 से 8215	सभी माल	0.0
1083	830110	सभी माल	0.0
1084	830130 से 830210	सभी माल	0.0
1085	830220	सभी माल	2.0
1086	830241 से 830629	सभी माल	0.0
1087	830630	सभी माल	2.0
1088	8307 से 8309	सभी माल	0.0
1089	8310	सभी माल	2.0
1090	831110	सभी माल	0.0
1091	831120	सभी माल	2.0
1092	831130 से 831190	सभी माल	0.0
1093	8401 से 8404	सभी माल	0.0
1094	840510	सभी माल	2.0
1095	840590 से 840682	सभी माल	0.0
1096	840690	सभी माल	2.0
1097	840710	सभी माल	0.0
1098	843721	सभी माल	0.0
1099	840729 से 840731	सभी माल	0.0
1100	840790	सभी माल	2.0
1101	840810	सभी माल	0.0
1102	840820	सभी माल	5.0
1103	840890	सभी माल	0.0
1104	840910	सभी माल	0.0
1105	840991	सभी माल	0.0
1106	8410 से 8411 (सिवाय 841191)	सभी माल	0.0
1107	841191	सभी माल	2.0
1108	841210	सभी माल	2.0
1109	841221	सभी माल	0.0
1110	841229	सभी माल	2.0
1111	841231	सभी माल	0.0
1112	841239	सभी माल	2.0
1113	841280 से 841290	सभी माल	0.0
1114	84131110	सभी माल	0.0
1115	84131191 से 84131199	सभी माल	0.0
1116	84131910	सभी माल	0.0



1117	84131990	सभी माल	0.0
1118	841320	सभी माल	0.0
1119	841340	सभी माल	2.0
1120	841350	सभी माल	0.0
1121	841360	सभी माल	2.0
1122	841370	सभी माल	5.0
1123	841381	सभी माल	2.0
1124	84138200 से 84139130	सभी माल	0.0
1125	84139140	सभी माल	0.0
1126	84139190	सभी माल	0.0
1127	841392	सभी माल	2.0
1128	841410	सभी माल	0.0
1129	84142010 से 84142020	सभी माल	0.0
1130	84142090	सभी माल	0.0
1131	841430 से 841440	सभी माल	5.0
1132	84145110 से 84145130	सभी माल	6.0
1133	84145140 से 84145190	सभी माल	5.0
1134	84145910	सभी माल	2.0
1135	84145920	सभी माल	2.0
1136	84145930 से 84146000	सभी माल	2.0
1137	84149011	सभी माल	0.0
1138	84149012	सभी माल	0.0
1139	84149019 से 84149020	सभी माल	0.0
1140	84149030	सभी माल	0.0
1141	84149040 से 84149090	सभी माल	0.0
1142	841510	सभी माल	6.0
1143	841581 से 841583	सभी माल	6.0
1144	841590	सभी माल	0.0
1145	841610 से 841720	सभी माल	0.0
1146	841780	सभी माल	5.0
1147	841790	सभी माल	0.0
1148	84181010	सभी माल	5.0
1149	84181090	सभी माल	6.0
1150	841821	सभी माल	0.0
1151	841829	सभी माल	6.0
1152	84183010	सभी माल	5.0
1153	84183090	सभी माल	6.0

1154	841840	सभी माल	0.0
1155	841850 से 841861	सभी माल	5.0
1156	84186910	सभी माल	0.0
1157	84186920 से 84186930	सभी माल	0.0
1158	84186940 से 84189900	सभी माल	0.0
1159	84191110	सभी माल	0.0
1160	84191190	सभी माल	0.0
1161	84191910	सभी माल	0.0
1162	84191920 से 84193200	सभी माल	0.0
1163	841939	सभी माल	5.0
1164	841940	सभी माल	2.0
1165	841950	सभी माल	5.0
1166	841960	सभी माल	0.0
1167	841981	सभी माल	2.0
1168	841989 (सिवाय 84198970)	सभी माल	0.0
1169	84198970	सभी माल	0.0
1170	84199010	सभी माल	0.0
1171	84199090 से 84211930	सभी माल	0.0
1172	84211940	सभी माल	0.0
1173	84211950 से 84211991	सभी माल	0.0
1174	84211999	सभी माल	0.0
1175	842121	सभी माल	2.0
1176	842122	सभी माल	0.0
1177	842129	सभी माल	2.0
1178	842139	सभी माल	5.0
1179	842191 से 842199	सभी माल	0.0
1180	842211	सभी माल	2.0
1181	842219 से 842220	सभी माल	0.0
1182	842230 से 842240	सभी माल	0.0
1183	84229010	सभी माल	0.0
1184	84229020	सभी माल	0.0
1185	84229090	सभी माल	0.0
1186	842310	सभी माल	0.0
1187	842320 से 842382	सभी माल	0.0
1188	842389	सभी माल	2.0
1189	84239010	सभी माल	0.0
1190	84239020	सभी माल	0.0

1191	842410	सभी माल	2.0
1192	842420 से 842481	सभी माल	0.0
1193	842489	सभी माल	2.0
1194	842490 से 842541	सभी माल	0.0
1195	842542	सभी माल	5.0
1196	842549	सभी माल	2.0
1197	842611 से 842710	सभी माल	0.0
1198	842720	सभी माल	2.0
1199	842790 से 842810	सभी माल	0.0
1200	842820	सभी माल	2.0
1201	842831 से 842833	सभी माल	0.0
1202	842839	सभी माल	2.0
1203	842840 से 842930	सभी माल	0.0
1204	842940	सभी माल	2.0
1205	842951	सभी माल	0.0
1206	842952 से 842959	सभी माल	2.0
1207	843010 से 843031	सभी माल	0.0
1208	843039	सभी माल	2.0
1209	843041 से 843110	सभी माल	0.0
1210	843120	सभी माल	2.0
1211	843131 से 843790 (सिवाय 84331190, 84331990 and 843621)	सभी माल	0.0
1212	84331190	सभी माल	0.0
1213	84331990	सभी माल	0.0
1214	843621	सभी माल	0.0
1215	843810	सभी माल	2.0
1216	843820 से 843890	सभी माल	0.0
1217	843910 से 843991	सभी माल	0.0
1218	843999 से 844010	सभी माल	2.0
1219	844090	सभी माल	0.0
1220	844110	सभी माल	2.0
1221	844120 से 844140	सभी माल	0.0
1222	844180	सभी माल	2.0
1223	844190 से 844312	सभी माल	0.0
1224	844313	सभी माल	2.0
1225	844314 से 844317	सभी माल	0.0

1226	844319	सभी माल	2.0
1227	844331 से 844332	सभी माल	0.0
1228	84433910	सभी माल	2.0
1229	84433920	सभी माल	0.0
1230	84433930	सभी माल	0.0
1231	84433940	सभी माल	0.0
1232	84433950 से 84433970	सभी माल	0.0
1233	84433990	सभी माल	2.0
1234	844391	सभी माल	0.0
1235	84439910 से 84439959	सभी माल	0.0
1236	84439960 से 84454090	सभी माल	0.0
1237	844590	सभी माल	2.0
1238	844610	सभी माल	0.0
1239	844621	सभी माल	2.0
1240	844629 से 844900	सभी माल	0.0
1241	845011	सभी माल	6.0
1242	845012 से 845019	सभी माल	0.0
1243	845020	सभी माल	0.0
1244	84509010	सभी माल	0.0
1245	84509090 से 84511090	सभी माल	0.0
1246	845121	सभी माल	0.0
1247	845129	सभी माल	2.0
1248	84513010	सभी माल	0.0
1249	84513090 से 84514099	सभी माल	0.0
1250	845150 से 845190	सभी माल	2.0
1251	845210	सभी माल	6.0
1252	845221 से 845229	सभी माल	0.0
1253	84523010	सभी माल	2.0
1254	84523090	सभी माल	2.0
1255	84529011 से 84529019	सभी माल	0.0
1256	84529091	सभी माल	0.0
1257	84529099 से 84563000	सभी माल	0.0
1258	84569010	सभी माल	0.0
1259	84569020 से 84592100	सभी माल	0.0
1260	845929	सभी माल	2.0
1261	845931 से 845951	सभी माल	0.0
1262	845959 से 845961	सभी माल	2.0

1263	845969 से 846021	सभी माल	0.0
1264	846029	सभी माल	2.0
1265	846031 से 846040	सभी माल	0.0
1266	846090 से 846120	सभी माल	2.0
1267	846130 से 846140	सभी माल	0.0
1268	846150 से 846190	सभी माल	2.0
1269	846210 से 846591	सभी माल	0.0
1270	846592 से 846593	सभी माल	2.0
1271	846594 से 846691	सभी माल	0.0
1272	846692	सभी माल	2.0
1273	846693 से 846694	सभी माल	0.0
1274	846711 से 846719	सभी माल	2.0
1275	846721	सभी माल	0.0
1276	846722	सभी माल	2.0
1277	846729	सभी माल	0.0
1278	846781	सभी माल	2.0
1279	846789 से 846890	सभी माल	0.0
1280	84690010	सभी माल	0.0
1281	84690020	सभी माल	2.0
1282	84690030 से 84690040	सभी माल	0.0
1283	84690090	सभी माल	0.0
1284	8470 से 8471	सभी माल	0.0
1285	847210 से 847230	सभी माल	0.0
1286	84729010	सभी माल	0.0
1287	84729020	सभी माल	0.0
1288	84729030	सभी माल	0.0
1289	84729040 से 84729090	सभी माल	0.0
1290	847310	मुद्रित परिपथ शब्द प्रसंस्करण मशीन	0.0
1291	847310	मुद्रित परिपथ शब्द प्रसंस्करण मशीन के सिवाय सभी माल	2.0
1292	847321 से 847330	सभी माल	0.0
1293	84734010	सभी माल	2.0
1294	84734090	सभी माल	0.0
1295	847350	सभी माल	0.0
1296	847410	सभी माल	0.0
1297	847420	सभी माल	2.0
1298	847431 से 847621	सभी माल	0.0

1299	847629	सभी माल	2.0
1300	847681 से 847690	सभी माल	0.0
1301	847710	सभी माल	0.0
1302	847720 से 847780	सभी माल	0.0
1303	847790	सभी माल	0.0
1304	847810	सभी माल	0.0
1305	847890	सभी माल	2.0
1306	847910	सभी माल	0.0
1307	847920	सभी माल	2.0
1308	847930	सभी माल	0.0
1309	847940	सभी माल	0.0
1310	847950	सभी माल	2.0
1311	847960	सभी माल	0.0
1312	847971 से 847979	सभी माल	0.0
1313	84798100 से 84798992	सभी माल	0.0
1314	84798999	सभी माल	0.0
1315	84799010 से 84799040	सभी माल	0.0
1316	84799090	सभी माल	0.0
1317	848010 से 848050	सभी माल	0.0
1318	848060	सभी माल	2.0
1319	848071 से 848079	सभी माल	0.0
1320	848110	सभी माल	2.0
1321	848120	सभी माल	0.0
1322	848130 से 848140	सभी माल	2.0
1323	848180 से 848299	सभी माल	0.0
1324	848330	सभी माल	0.0
1325	848350 से 848410	सभी माल	5.0
1326	848420	सभी माल	0.0
1327	848490	सभी माल	5.0
1328	8486	सभी माल	0.0
1329	8487	सभी माल	2.0
1330	850120	सभी माल	0.0
1331	850133 से 850134	सभी माल	0.0
1332	850140	सभी माल	5.0
1333	850151	सभी माल	0.0
1334	850152	सभी माल	5.0
1335	850153	सभी माल	0.0

1336	850161	सभी माल	2.0
1337	850162 से 850164	सभी माल	0.0
1338	850211	सभी माल	0.0
1339	850212 से 850213	सभी माल	0.0
1340	85022010	सभी माल	2.0
1341	85022090	सभी माल	2.0
1342	850231	सभी माल	0.0
1343	850239	सभी माल	2.0
1344	850240 से 850300	सभी माल	0.0
1345	850410	सभी माल	5.0
1346	850421	सभी माल	2.0
1347	850422 से 850423	सभी माल	0.0
1348	850431 से 850432	सभी माल	0.0
1349	850433 से 850434	सभी माल	0.0
1350	85044010	सभी माल	6.0
1351	85044021	सभी माल	5.0
1352	85044029	सभी माल	5.0
1353	85044030	सभी माल	6.0
1354	85044040	सभी माल	6.0
1355	85044090	सभी माल	5.0
1356	850450	सभी माल	0.0
1357	850490	सभी माल	2.0
1358	850511 से 850520	सभी माल	0.0
1359	850590	इलेक्ट्रोमैग्नेटिंग लिफ्टिंग हेड्स के सिवाय अन्य सभी माल	2.0
1360	850590	इलेक्ट्रोमैग्नेटिंग लिफ्टिंग हेड्स	0.0
1361	850610 से 850650	सभी माल	0.0
1362	850660 से 850690	सभी माल	2.0
1363	850710	सभी माल	0.0
1364	850720	सभी माल	2.0
1365	850730	सभी माल	0.0
1366	850740 से 850819	औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर के सिवाय सभी माल	2.0
1367	850819	औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर	0.0
1368	850860	सभी माल	0.0
1369	850870	घरेलू वैक्यूम क्लीनर के माग	2.0
1370	850870	औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर के माग	0.0
1371	850940	सभी माल	6.0
1372	850980	सभी माल	0.0

1373	850990 से 851010	सभी माल	2.0
1374	851020 से 851090	सभी माल	0.0
1375	851110	सभी माल	5.0
1376	851190	सभी माल	5.0
1377	85121000 से 85122020	सभी माल	0.0
1378	85122090	सभी माल	0.0
1379	85123010	सभी माल	2.0
1380	85123090	सभी माल	2.0
1381	851290	सभी माल	5.0
1382	85131010	सभी माल	6.0
1383	85131020 से 85139000	सभी माल	5.0
1384	851410	सभी माल	0.0
1385	851420	सभी मालयों अर्धचालक वैफर्स पर अर्धचालक युक्ति , एवं भट्टियां के निर्माण हेतु प्रेरण और परावैद्युत भ्रष्ट के सिवाय	0.0
1386	851420	सभी मालयों अर्धचालक वैफर्स पर अर्धचालक युक्ति , के निर्माण हेतु प्रेरण और परावैद्युत भ्रष्ट एवं भट्टियां	0.0
1387	85143010	सभी माल	0.0
1388	85143090 से 85144000	सभी माल	0.0
1389	851490	सभी माल	0.0
1390	851511 से 851519	सभी माल	2.0
1391	851521 से 851529	सभी माल	0.0
1392	851531 से 851539	सभी माल	2.0
1393	851580 से 851590	सभी माल	0.0
1394	851610	सभी माल	6.0
1395	851621	सभी माल	0.0
1396	851629	सभी माल	6.0
1397	851631	सभी माल	2.0
1398	851632	सभी माल	0.0
1399	851633	सभी माल	2.0
1400	851640	सभी माल	6.0
1401	851650	सभी माल	0.0
1402	851660 से 851672	सभी माल	6.0
1403	851679	सभी माल	0.0
1404	851680 से 851690	सभी माल	2.0
1405	8517	सभी माल	0.0
1406	851810	सभी माल	0.0
1407	851821 से 851829	300 सी रेंजफ्रिक्वें , बिना आवास के , करलाउड स्पी)	2.0



		Hz से 4,3Khz डायामीटर सहित सी एम से 50 दूरसंचार उपयोग के लिए भां कु अधिक नहीं सभी माल, के सिवाय प्रकार से अन्य	
1408	851829	300 सी रेंजफ्रिक्वे, बिना आवास के करलाउड स्पी) Hz से 4, 3 Khz डायामीटर सहित से सी एम 50 दूरसंचार उपयोग के लिए, अधिक नहीं भां कु प्रकार भां कु प्रकार से अन्य	0.0
1409	851830	सभी माल	0.0
1410	851840	सभी माल	2.0
1411	851850	सभी माल	6.0
1412	851890	सभी माल	2.0
1413	851920 से 851930	सभी माल	0.0
1414	851950	सभी माल	0.0
1415	85198100 से 85198930	सभी माल	0.0
1416	85198940	सभी माल	0.0
1417	85198990 से 85211099	सभी माल	0.0
1418	852190	सभी माल	2.0
1419	852210 से 852351	सभी माल	0.0
1420	85235210 से 85235910	सभी माल	0.0
1421	85235990 से 85238010	सभी माल	0.0
1422	85238020	सभी माल	0.0
1423	85238030 से 85238090	सभी माल	0.0
1424	85255010 से 85255040	सभी माल	0.0
1425	85255050	सभी माल	0.0
1426	85255090	सभी माल	0.0
1427	852560	सभी माल	0.0
1428	852580	सभी माल	2.0
1429	852610	सभी माल	0.0
1430	852691 से 852692	सभी माल	2.0
1431	852712 से 852792	सभी माल	0.0
1432	85279911	सभी माल	0.0
1433	85279912 से 85286100	सभी माल	0.0
1434	852869	रंगीन विडियो प्रोजेक्टर और विडियो डब्ल्यू/ सभी माल, के सिवाय या अन्य प्रोजेक्ट	2.0
1435	852869	रंगीन विडियो प्रोजेक्टर और बी विडियो प्रोजेक्ट डब्ल्यू/ या अन्य	0.0
1436	852871 से 852873	सभी माल	2.0
1437	85291011 से 85291012	सभी माल	0.0
1438	85291019	सभी माल	0.0
1439	85291021	सभी माल	0.0

1440	85291022	सभी माल	0.0
1441	85291029	सभी माल	0.0
1442	85291091 से 85291092	सभी माल	0.0
1443	85291092	सभी माल	0.0
1444	85291099	सभी माल	0.0
1445	85299010 से 85299020	सभी माल	0.0
1446	85299090	सभी माल	0.0
1447	853010 से 853080	सभी माल	0.0
1448	853090	सभी माल	2.0
1449	853110	सभी माल	6.0
1450	853120	सभी माल	0.0
1451	853180 से 853190	सभी माल	0.0
1452	8532 से 8534	सभी माल	0.0
1453	853510	सभी माल	5.0
1454	853521 से 853530	सभी माल	0.0
1455	853540	सभी माल	2.0
1456	853590	सभी माल	5.0
1457	85361010	सभी माल	2.0
1458	85361020 से 85363000	सभी माल	2.0
1459	853641	सभी माल	2.0
1460	853649	सभी माल	2.0
1461	85365010	सभी माल	0.0
1462	85365020	सभी माल	0.0
1463	85365090	सभी माल	0.0
1464	853661	सभी माल	2.0
1465	85366910	सभी माल	0.0
1466	85366990	सभी माल	0.0
1467	853670	सभी माल	5.0
1468	85369010 से 85369030	सभी माल	5.0
1469	85369090	सभी माल	0.0
1470	853710	सभी माल	2.0
1471	853720 से 853810	सभी माल	0.0
1472	853890	सभी माल	2.0
1473	853910 से 853921	सभी माल	2.0
1474	853922	सभी माल	0.0
1475	853929 से 853931	सभी माल	2.0
1476	853932	सभी माल	0.0

1477	853939	सभी माल	2.0
1478	853941 से 853949	सभी माल	0.0
1479	853990	सभी माल	6.0
1480	854011 से 854012	सभी माल	2.0
1481	854020	सभी माल	0.0
1482	85404010	सभी माल	0.0
1483	85404020	सभी माल	0.0
1484	854060	सभी माल	2.0
1485	854071 से 854099	सभी माल	0.0
1486	854110 से 854233	सभी माल	0.0
1487	854239	सभी माल	0.0
1488	85429000 से 85431010	सभी माल	0.0
1489	85431020 से 85432090	सभी माल	0.0
1490	85433000 से 85437011	सभी माल	0.0
1491	85437012 से 85437099	सभी माल	0.0
1492	854390	सभी माल	0.0
1493	854411 से 854419	सभी माल	5.0
1494	854420	सभी माल	2.0
1495	854442 से 854449	सभी माल	0.0
1496	854460	सभी माल	2.0
1497	854470	सभी माल	0.0
1498	854511 से 854519	सभी माल	0.0
1499	854520	सभी माल	5.0
1500	854590 से 854790	सभी माल	0.0
1501	8548	सभी माल	0.0
1502	8601 से 8608	सभी माल	0.0
1503	8609	सभी माल	2.0
1504	8701	सभी माल	0.0
1505	870310	सभी माल	0.0
1506	870410	सभी माल	0.0
1507	870432 से 870530	सभी माल	0.0
1508	870540	सभी माल	2.0
1509	870590	सभी माल	0.0
1510	870710 से 870810	सभी माल	0.0
1511	870840	सभी माल	0.0
1512	870850	गैर -ड्राइव धुरों और तत्संबंधी भागों	0.0

1513	870850	ड्राइव एक्सेल भाग के अंतर के साथ संचरण प्रदान घटकों अन्य	6.0
1514	870870	सभी माल	6.0
1515	870880	सस्पेंशन शॉक एब्जॉबर्स के पार्ट	6.0
1516	870891	सभी माल	2.0
1517	870892	साइलेंसर और एक्जॉसट पाइप के पार्ट	6.0
1518	870894	स्टीयरिंग पहियों ,स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग बॉक्स के पार्ट	6.0
1519	870895 से 870899	सभी माल	6.0
1520	870911 से 870919	सभी माल	0.0
1521	870990	सभी माल	6.0
1522	8710	सभी माल	0.0
1523	871110	सभी माल	13.0
1524	871130	सभी माल	13.0
1525	871150 से 871190	सभी माल	0.0
1526	8712	सभी माल	6.0
1527	87131010 से 87141010	सभी माल	0.0
1528	871420 से 871496	सभी माल	0.0
1529	871499	सभी माल	2.0
1530	871500 से 871631	सभी माल	0.0
1531	871639	सभी माल	2.0
1532	871640 से 871680	सभी माल	0.0
1533	871690	सभी माल	6.0
1534	880100 से 880212	सभी माल	0.0
1535	880220 से 880240	सभी माल	0.0
1536	880260	सभी माल	0.0
1537	880310 से 880330	सभी माल	0.0
1538	880390 से 880529	सभी माल	0.0
1539	8901	सभी माल	0.0
1540	89020010	सभी माल	0.0
1541	89020090 से 89040000	सभी माल	0.0
1542	890510	सभी माल	0.0
1543	890520 से 890790	सभी माल	0.0
1544	8908	सभी माल	0.0
1545	900110 से 900140	सभी माल	0.0
1546	900150	सभी माल	2.0
1547	900190 से 900691	सभी माल	0.0
1548	900699	सभी माल	2.0

1549	90071010 से 90085020	सभी माल	0.0
1550	90085030	सभी माल	2.0
1551	90085040 से 90089000	सभी माल	0.0
1552	901010 से 901050	सभी माल	0.0
1553	901060	सभी माल	0.0
1554	901090 से 901110	सभी माल	0.0
1555	901120 से 901180	सभी माल	0.0
1556	901190 से 901290	सभी माल	0.0
1557	90131010	सभी माल	0.0
1558	90131020 से 90132000	सभी माल	0.0
1559	90138010	सभी माल	0.0
1560	90138090	सभी माल	0.0
1561	90139010	सभी माल	0.0
1562	90139090 से 90152000	सभी माल	0.0
1563	901530	सभी माल	2.0
1564	901540	सभी माल	0.0
1565	901590	सभी माल	0.0
1566	901600 से 901710	सभी माल	0.0
1567	90172010	सभी माल	0.0
1568	90172020 से 90179000	सभी माल	0.0
1569	901811 से 901820	सभी माल	0.0
1570	901831 से 901839	सभी माल	2.0
1571	901841 से 902290	सभी माल	0.0
1572	9023	सभी माल	0.0
1573	9024	सभी माल	0.0
1574	90251110	सभी माल	0.0
1575	90251190	सभी माल	0.0
1576	90251910	सभी माल	0.0
1577	90251920 से 90259000	सभी माल	0.0
1578	9026	सभी माल	0.0
1579	902710	सभी माल	0.0
1580	902720 से 902790	सभी माल	0.0
1581	902810 से 902820	सभी माल	0.0
1582	902830	सभी माल	6.0
1583	902890	सभी माल	0.0
1584	90291010	सभी माल	6.0
1585	90291090	सभी माल	5.0

1586	902990	सभी माल	2.0
1587	903010 से 903020	सभी माल	0.0
1588	903031	सभी माल	2.0
1589	903032 से 903039	सभी माल	0.0
1590	903040 से 903082	सभी माल	0.0
1591	903084 से 903089	सभी माल	0.0
1592	90309010	सभी माल	2.0
1593	90309090	सभी माल	0.0
1594	903110 से 903120	सभी माल	0.0
1595	903141	सभी माल	0.0
1596	903149	सभी माल	0.0
1597	903180	सभी माल	2.0
1598	903210	सभी माल	2.0
1599	903220 से 903281	सभी माल	0.0
1600	903289 से 903290	सभी माल	2.0
1601	9033	सभी माल	0.0
1602	91	सभी माल	0.0
1603	92	सभी माल	0.0
1604	93	सभी माल	0.0
1605	940110	सभी माल	0.0
1606	940120	सभी माल	6.0
1607	940130 से 940159	सभी माल	0.0
1608	940161	सभी माल	2.0
1609	940169 से 940180	सभी माल	0.0
1610	940190 से 940210	सभी माल	2.0
1611	940290 से 940320	सभी माल	0.0
1612	940330	सभी माल	6.0
1613	940340	सभी माल	0.0
1614	940350 से 940360	सभी माल	2.0
1615	940370	सभी माल	6.0
1616	940381 से 940591	सभी माल	0.0
1617	940592	सभी माल	2.0
1618	940599 से 940600	सभी माल	0.0
1619	950300 से 950691	सभी माल	0.0
1620	9507 से 9508	सभी माल	0.0
1621	9601 से 9607	सभी माल	0.0

1622	960810	सभी माल	6.0
1623	960820 से 960891	सभी माल	0.0
1624	960899	सभी माल	2.0
1625	9609 से 9611	सभी माल	0.0
1626	961210	सभी माल	2.0
1627	961220 से 961900	सभी माल	0.0
1628	9701 से 9703	सभी माल	0.0
1629	9704	सभी माल	0.0
1630	9705 से 9706	सभी माल	0.0”

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/43/2009-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 499 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 56/2013-सीमा शुल्क, 31 दिसम्बर, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 816(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### Notification

New Delhi, the 29th December, 2014

### No. 37/ 2014 - Customs

**G.S.R. 923(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2011-Customs, dated the 1<sup>st</sup> July, 2011 published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 499 (E), dated the 1<sup>st</sup> July, 2011, namely:—

In the said notification, for the Table, the following shall be substituted, namely:—

“Table

S. No	Chapter, Heading, Sub-heading and Tariff item	Description	Rate (in percentage unless otherwise specified)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0101	All goods	0.0
2	010221	All goods	0.0
3	010229 to 010290	All goods	0.0
4	0103 to 0104	All goods	0.0
5	010599	All goods	12.0
6	0106	All goods	0.0
7	0201 to 0206	All goods	0.0
8	020724 to 0210 (except 020743 and 020753)	All goods	0.0
9	0301	All goods	0.0
10	030213 to 030222	All goods	0.0
11	030224 to 030229	All goods	0.0

12	030233 to 030239	All goods	0.0
13	030242	All goods	12.0
14	030245 to 030247	All goods	12.0
15	030252 to 030253	All goods	0.0
16	030254 to 030273	All goods	12.0
17	030274	All goods	0.0
18	030279	All goods	12.0
19	030281	All goods	0.0
20	030282 to 030289	All goods	12.0
21	030290 to 030312	All goods	0.0
22	030313	All goods	0.0
23	030319 to 030333	All goods	0.0
24	030343 to 030346	All goods	0.0
25	030349	All goods	8.0
26	030351	All goods	0.0
27	030357	All goods	8.0
28	030363 to 030366	All goods	0.0
29	030381	All goods	0.0
30	030383	All goods	8.0
31	030384	All goods	0.0
32	030390	All goods	0.0
33	030520	All goods	0.0
34	030541 to 030562	All goods	0.0
35	030564 to 030612	All goods	0.0
36	030619	All goods	0.0
37	030625	All goods	0.0
38	030629	All goods	0.0
39	0307 to 0308	All goods	0.0
40	0403	All goods	0.0
41	040490	All goods	0.0
42	040610 to 040640	All goods	0.0
43	0407	All goods	10.0
44	0408	All goods	12.0
45	0410	All goods	0.0
46	0501 to 0507	All goods	0.0
47	05080010	All goods	0.0
48	05080020 to 05119999	All goods	0.0
49	060110	All goods	2.0
50	060120 to 060240	All goods	0.0
51	060290	All goods	2.0
52	070390	All goods	0.0
53	070420 to 070529	All goods	0.0
54	070920	All goods	0.0
55	070940 to 070959	All goods	0.0
56	070970 to 070999	All goods	0.0
57	071030	All goods	0.0
58	0711	All goods	0.0
59	071231 to 071239	All goods	0.0
60	071320 to 071360	All goods	0.0
61	07139010	All goods	0.0
62	07139090	All goods	0.0
63	071420 to 071490	All goods	0.0
64	080121 to 080122	All goods	0.0
65	080131	All goods	0.0
66	080211	All goods	0.0



67	080221 to 080252	All goods	0.0
68	080410 to 080420	All goods	0.0
69	08043000	Xineapples	15.0
70	080440	All goods	0.0
71	080520	All goods	12.0
72	080711	All goods	8.0
73	080720	All goods	8.0
74	080830 to 080910	All goods	0.0
75	080930	All goods	0.0
76	080940	All goods	0.0
77	081010 to 081050 (except 081030)	All goods	0.0
78	081030	All goods	0.0
79	081060 to 081090	All goods	0.0
80	0811	All goods	0.0
81	081320	All goods	0.0
82	081330	All goods	8.0
83	0814	All goods	0.0
84	090111	All goods	70.0
85	090240	All goods	70.0
86	0903	All goods	0.0
87	090411	All goods	58.0
88	0906	All goods	0.0
89	0907	All goods	13.0
90	090821 to 090822	All goods	12.0
91	09096111 to 09096129	All goods	0.0
92	09096131 to 09096149	All goods	8.0
93	09096110 to 09096120	All goods	0.0
94	09096130 to 09096140	All goods	8.0
95	090940 to 090950	All goods	8.0
96	091020	All goods	8.0
97	1002 to 1004	All goods	0.0
98	100810	All goods	0.0
99	100830 to 100890	All goods	0.0
100	11029010	All goods	8.0
101	120910 to 120930	All goods	0.0
102	120991	All goods	2.0
103	120999	All goods	0.0
104	121010	All goods	8.0
105	121120	All goods	0.0
106	121130 to 121140	All goods	0.0
107	12119011 to 12119049	All goods other than liquorice roots fresh or dried whether or not crushed or powdered	3.0
108	12119049	Liquorice roots fresh or dried whether or not crushed or powdered	0.0
109	12119050 to 12119099	All goods	3.0
110	121221 to 121229	All goods	8.0
111	121291 to 121490	All goods	0.0
112	130120	All goods	0.0
113	130190 (except 13019022)	All goods other than lac	8.0
114	13019022	All goods	5.0
115	13019099	Lac	0.0
116	130211 to 130213	All goods	0.0
117	130219 to 130220	All goods	0.0
118	130231 to 130239	All goods	0.0

119	140190 to 140420	All goods	0.0
120	140490	All goods other than vegetable materials used primarily as broom or brushes(e.g. broom corn piassava etc) and raw vegetable materials of kind used primarily in dyeing or tanning	8.0
121	14049090	Vegetable materials used primarily as broom or brushes(e.g. broom corn piassava etc) and raw vegetable materials of kind used primarily in dyeing or tanning	0.0
122	1501	All goods	0.0
123	1502	All goods	0.0
124	1503 to 1504	All goods	0.0
125	1505	All goods	3.0
126	1506	All goods	0.0
127	150910	All goods	0.0
128	150990	All goods	0.0
129	151110	All goods	56.0
130	151190	All goods	66.0
131	15159091	Tung oil and its fractions,edible grade	0.0
132	15159099	Tung oil and its fractions,other than edible grade	0.0
133	151610	All goods	8.0
134	15132110	All goods	70.0
135	15132910	All goods	70.0
136	15171021	All goods	60.0
137	15180011	All goods	8.0
138	15180019	All goods	8.0
139	15180021	All goods	8.0
140	15180029	All goods	8.0
141	15180031	All goods	8.0
142	15180039	All goods	8.0
143	15180040	All goods	8.0
144	1521	All goods	8.0
145	1522	All goods	0.0
146	160220 to 160231	All goods	12.0
147	160239	All goods	0.0
148	160249 to 160300	All goods	0.0
149	160411 to 160413	All goods	8.0
150	160415 to 160416	All goods	8.0
151	160417 to 160419	All goods	0.0
152	160420	All goods	8.0
153	160510	All goods	0.0
154	160540 to 160590	All goods	0.0
155	170211 to 170219	All goods	0.0
156	170220	All goods	0.0
157	170230 to 170240	All goods	8.0
158	170250 to 170290	All goods	0.0
159	170310	All goods	2.0
160	170390	All goods	0.0
161	1704	All goods	0.0
162	1801 to 1802	All goods	0.0
163	1803	All goods	12.0
164	180400 to 180620	All goods	8.0
165	180631 to 180632	All goods	0.0
166	190110 to 190120	All goods	0.0
167	190190	All goods	8.0
168	190211 to 190220	All goods	0.0

169	190230 to 190240	All goods	8.0
170	190410	All goods	0.0
171	190430	All goods	0.0
172	190510 to 190531	All goods	0.0
173	190532	All goods	8.0
174	190540	All goods	0.0
175	190590	All goods	8.0
176	2001	All goods	0.0
177	200290	All goods	8.0
178	20039090	All goods	0.0
179	200490	All goods	0.0
180	200560 to 200570	All goods	0.0
181	200710 to 200820	All goods	0.0
182	200870 to 200880	All goods	0.0
183	200912	All goods	0.0
184	200921 to 200941	All goods	0.0
185	200961 to 200989	All goods	0.0
186	200990	All goods	8.0
187	210210 to 210610	All goods	0.0
188	220110 to 220210	All goods	0.0
189	220290	All goods	8.0
190	220720	All goods	0.0
191	2209	All goods	8.0
192	230110	All goods	0.0
193	230120	All goods	5.0
194	2302 to 2303	All goods	0.0
195	2307 to 2308	All goods	0.0
196	230910	All goods	0.0
197	2501 to 2514	All goods	0.0
198	251511 to 251512	All goods	6.0
199	251520	All goods	2.0
200	2516	All goods	0.0
201	2517 to 2521	All goods	0.0
202	252210	All goods	5.0
203	252220 to 252230	All goods	0.0
204	252310 to 252321	All goods	6.0
205	252329	All goods	0.0
206	252330	All goods	2.0
207	252390	All goods	6.0
208	2524	All goods	0.0
209	2525 to 2530	All goods	0.0
210	2601 to 2617	All goods	0.0
211	2618 to 2619	All goods	0.0
212	262011 to 262019	All goods	0.0
213	262021 to 262029	All goods	0.0
214	262030	All goods	0.0
215	262040 to 262190	All goods	0.0
216	270111 to 270119	All goods	0.0
217	270120 to 270820	All goods	0.0
218	2709	All goods	5.0
219	271111 to 271113	All goods	0.0
220	271119	All goods	0.0
221	271121	All goods	5.0
222	2714 to 2715	All goods	0.0
223	2716	All goods	0.0

224	2801 to 2802	All goods	0.0
225	2803	All goods	5.0
226	280410	All goods	0.0
227	280421	All goods	5.0
228	280429 to 280540	All goods	0.0
229	2806 to 2813 (except 28100020)	All goods	0.0
230	28100020	All goods	0.0
231	2814	All goods	0.0
232	281511 to 281512	All goods	5.0
233	281520 to 281640	All goods	0.0
234	28170020	All goods	2.0
235	2818 to 2822 (except 28182010)	All goods	0.0
236	28182010	All goods	0.0
237	28230010	All goods	0.0
238	28230090	All goods	0.0
239	282410	All goods	5.0
240	282490 to 285300	All goods	0.0
241	290110 to 290230	All goods	0.0
242	290241 to 290242	All goods	5.0
243	290243	All goods	0.0
244	290244	All goods	5.0
245	290250	All goods	0.0
246	290260 to 290290	All goods	0.0
247	29031110	All goods	0.0
248	29031120	All goods	0.0
249	290312	All goods	0.0
250	290313	All goods	5.0
251	290314	All goods	0.0
252	290315	All goods	0.0
253	290319	All goods	0.0
254	290321	All goods	0.0
255	290322	All goods	0.0
256	290323	All goods	0.0
257	290329	All goods	5.0
258	290331 to 290381	All goods	0.0
259	290382 to 290389	All goods	5.0
260	290391 to 290392	All goods	0.0
261	290399	All goods	5.0
262	2904	All goods	0.0
263	290511 to 290512	All goods	5.0
264	290513	All goods	0.0
265	290514	All goods	5.0
266	290516 to 290517	All goods	0.0
267	29051910 to 29051990	All goods other than saturated Pentanol (Amyl alcohol) and isomers thereof	5.0
268	29051990	Saturated Pentanol (Amyl alcohol) and isomers thereof	0.0
269	290522	All goods	0.0
270	290529 to 290539	All goods	5.0
271	290541 to 290542	All goods	0.0
272	290543 to 290544	All goods	0.0
273	290545 to 290549	All goods	5.0
274	290551 to 290611	All goods	0.0
275	290612	All goods	2.0

276	290613 to 290621	All goods	0.0
277	290629 to 290711	All goods	5.0
278	290712	All goods	0.0
279	290713	All goods	2.0
280	290715	All goods	0.0
281	290719	All goods other than Xylenol and their salts	2.0
282	29071990	Xylenol and their salts	0.0
283	290721 to 290722	All goods	0.0
284	290723	All goods	0.0
285	290729	All goods	5.0
286	290811	All goods	0.0
287	290819	All goods other than derivatives containing only halogen substituent and their salts (excluding Pentachlorophenol (ISO))	5.0
288	290819	Derivatives containing only halogen substituent and their salts (excluding Pentachlorophenol (ISO))	0.0
289	290891	All goods	5.0
290	290892 to 290911	All goods	0.0
291	290919	All goods	5.0
292	290920	All goods	0.0
293	290930	All goods	5.0
294	290941 to 290944	All goods	0.0
295	290949	All goods	5.0
296	290950 to 291020	All goods	0.0
297	291030	All goods	0.0
298	291040 to 291090	All goods	5.0
299	291100 to 291212	All goods	0.0
300	291219	All goods other than butanol(butylaldehyde, normal isomer)	5.0
301	29121990	Butanol (butylaldehyde, normal isomer)	0.0
302	291221	All goods	2.0
303	291229	All goods	0.0
304	291241 to 291300	All goods	0.0
305	291411	All goods	6.0
306	291412 to 291413	All goods	2.0
307	291419	All goods	5.0
308	29142921 to 29142922	All goods	0.0
309	291422	All goods	2.0
310	291423	All goods	0.0
311	29142910	All goods	5.0
312	29142990	All goods	5.0
313	291431	All goods	0.0
314	291439	All goods	5.0
315	291440 to 291450	All goods	2.0
316	291461	All goods	0.0
317	291469	All goods	5.0
318	291470 to 291513	All goods	0.0
319	291521 to 291529	All goods other than Sodium acetate and cobalt acetate	5.0
320	29152990	Sodium acetate and cobalt acetate	0.0
321	291531	All goods	5.0
322	291532 to 291560	All goods	0.0
323	291570	All goods	5.0
324	29159030	All goods	6.0
325	291611 to 291612	All goods	5.0
326	291615	All goods	0.0

327	291616 to 291619	All goods	6.0
328	291620	All goods	0.0
329	291631	All goods	5.0
330	291632	All goods	0.0
331	291634	All goods	5.0
332	29163990	Esters of phenyl acetic acid	0.0
333	291636	All goods	0.0
334	291639	All goods except Esters of Phenyl acetic acid	2.0
335	291711 to 291713	All goods	0.0
336	291714	All goods	2.0
337	291719	All goods	5.0
338	291720	All goods	0.0
339	291732	All goods	5.0
340	291733 to 291735	All goods	2.0
341	291736 to 291739	All goods	5.0
342	291811 to 291812	All goods	0.0
343	29181310	All goods	6.0
344	29181390	All goods	6.0
345	291814 to 291815	All goods	0.0
346	29181690	All goods	6.0
347	291818 to 291819	All goods	0.0
348	291821	All goods	2.0
349	291822 to 291830	All goods	5.0
350	291891 to 292019	All goods	0.0
351	292090	All goods	5.0
352	2921 to 2925	All goods	0.0
353	292610	All goods	0.0
354	292620 to 293020	All goods	0.0
355	293030	All goods	2.0
356	293040	All goods	0.0
357	29305000	All goods	0.0
358	29309010	All goods	2.0
359	29309030	All goods	2.0
360	29309050	All goods	2.0
361	29309060	All goods	2.0
362	29309070	All goods	2.0
363	29309080	All goods	2.0
364	29309091	All goods	2.0
365	29309099	Other, other than dithiocarbonates(xanthates)	2.0
366	29309099	Dithiocarbonates (xanthates)	0.0
367	2931	All goods	5.0
368	293211 to 293369	All goods	0.0
369	293371	All goods	6.0
370	293372 to 294200	All goods	0.0
371	3001 to 3002	All goods	0.0
372	300310 to 300320	All goods	6.0
373	300331	All goods	0.0
374	300339 to 300340	All goods	6.0
375	300390	All goods	0.0
376	300410 to 300431	All goods	6.0
377	300432	All goods	0.0
378	300439 to 300490	All goods	6.0
379	300510 to 300650	All goods	0.0
380	300660	All goods	0.0
381	300670	All goods	0.0

382	300691	All goods	6.0
383	300692	All goods	0.0
384	3101	All goods	5.0
385	310210	All goods	5.0
386	310221	All goods	0.0
387	310229 to 310240	All goods	5.0
388	310250	All goods	0.0
389	310260 to 310420	All goods	5.0
390	310430	All goods	0.0
391	310490 to 310510	All goods	5.0
392	310520 to 310590	All goods	0.0
393	3201	All goods	0.0
394	320210	All goods	5.0
395	320290 to 320420	All goods	0.0
396	320490	All goods	5.0
397	3205	All goods	0.0
398	320611 to 320619	All goods	0.0
399	320620	All goods	0.0
400	320641	All goods	5.0
401	320642	All goods	0.0
402	320649	All goods other than Pigments and preparations based on cadmium compounds and pigments and preparations based on hexacyanoferrate (ferrocyanides and ferricyanides)	6.0
403	32064990	Pigments & preparations based on cadmium compounds and pigments & preparations based on hexacyanoferrate (ferrocyanides and ferricyanides)	0.0
404	320650 to 320730	All goods	0.0
405	320740	All goods	0.0
406	320810 to 320910	All goods	0.0
407	320990	All goods	2.0
408	32100090	All goods	6.0
409	32110000 to 32129010	All goods	0.0
410	32129020	All goods	0.0
411	32129030 to 32141000	All goods	0.0
412	321490	All goods	6.0
413	3215	All goods	0.0
414	330112 to 330113	All goods	0.0
415	330119	All goods other than essential oils of bergamot and essential oils of lime	8.0
416	33011990	Essential oils of bergamot and essential oils of lime	0.0
417	330124 to 330129	All goods	8.0
418	330130 to 330190	All goods	0.0
419	330210	All goods	13.0
420	330290 to 330300	All goods	6.0
421	3304 to 3305	All goods	0.0
422	330610	All goods	6.0
423	330620 to 330720	All goods	0.0
424	330730	All goods	2.0
425	330741	All goods	6.0
426	330749 to 330790	All goods	0.0
427	340111	All goods	0.0
428	340119	All goods	6.0
429	340120 to 340211	All goods	0.0
430	340212 to 340213	All goods	6.0
431	340219 to 340290	All goods	0.0

432	340311	All goods	0.0
433	340319	All goods	5.0
434	340391	All goods	0.0
435	340399	All goods	5.0
436	3404	All goods	0.0
437	340510 to 340530	All goods	6.0
438	340540 to 340590	All goods	0.0
439	3406	All goods	6.0
440	3407	All goods	0.0
441	3501	All goods	8.0
442	3502 to 3503	All goods	0.0
443	35040010	All goods	8.0
444	35040091	All goods	8.0
445	35040099 to 35052000	All goods	8.0
446	350610 to 350691	All goods	6.0
447	350699 to 350790	All goods	0.0
448	3601 to 3604	All goods	0.0
449	3606	All goods	0.0
450	370110	All goods	0.0
451	370120	All goods	0.0
452	370130 to 370710	All goods	0.0
453	370790	All goods	6.0
454	3801 to 3807	All goods	0.0
455	38085000	Insecticides	6.0
456	38085000	Fungicides	2.0
457	38085000	Other than insecticides, fungicides, herbicides-anti-sprouting products, disinfectants and plant-growth regulators	0.0
458	380891	All goods	6.0
459	380892	All goods	2.0
460	380893	All goods	6.0
461	38089400	All goods	6.0
462	380899	All goods	0.0
463	380910	All goods	0.0
464	380991 to 380992	All goods	0.0
465	380993	All goods	5.0
466	3810	All goods	0.0
467	3811	All goods	0.0
468	381210	All goods	0.0
469	381230	All goods	0.0
470	3813 to 3814	All goods	0.0
471	3815 to 3816	All goods	0.0
472	3817	All goods	5.0
473	3818	All goods	0.0
474	3819 to 3822	All goods	0.0
475	38231111 to 38231119	All goods	8.0
476	38231190	All goods	8.0
477	382312 to 382313	All goods	0.0
478	382319	All goods	8.0
479	382370	All goods	0.0
480	382410 to 382450	All goods	0.0
481	382460	All goods	0.0
482	382471 to 382490	All goods	0.0
483	3825	All goods	0.0
484	390110 to 390120	All goods	5.0



485	390130	All goods	2.0
486	390190 to 390210	All goods	5.0
487	390220	All goods	0.0
488	390230	All goods	5.0
489	390290	All goods	2.0
490	390311 to 390410	All goods	5.0
491	390421	All goods	2.0
492	390422	All goods	5.0
493	390430	All goods	2.0
494	390440 to 390461	All goods	0.0
495	390469 to 390521	All goods	2.0
496	390529	All goods	5.0
497	390530 to 390599	All goods	0.0
498	3906	All goods	5.0
499	390710 to 390720	All goods	0.0
500	390730	All goods	2.0
501	390740	All goods	2.0
502	390750	All goods	2.0
503	390760	All goods	5.0
504	390770	All goods	2.0
505	390791	All goods	5.0
506	390799	All goods	2.0
507	3908	All goods	6.0
508	390910 to 390940	All goods	5.0
509	390950 to 391400	All goods	0.0
510	391610	All goods	6.0
511	391620	All goods	2.0
512	391690	All goods	6.0
513	391710 to 391729	All goods	2.0
514	391731	All goods	6.0
515	391732 to 391739	All goods	2.0
516	391740 to 392061	All goods	6.0
517	392062	All goods	2.0
518	392063 to 392071	All goods	6.0
519	392079	All goods	2.0
520	392091	All goods	6.0
521	392092 to 392094	All goods	2.0
522	392111 to 392112	All goods	6.0
523	392114 to 392119	All goods	2.0
524	3922 to 3923	All goods	6.0
525	392490	All goods	6.0
526	392510	All goods	2.0
527	392520 to 392620	All goods	6.0
528	392640 to 392690	All goods	6.0
529	400130 to 400220	All goods	0.0
530	400231	All goods	0.0
531	400239 to 400260	All goods	0.0
532	400270	All goods	6.0
533	400280 to 400299	All goods	0.0
534	4003	All goods	6.0
535	400400 to 400510	All goods	0.0
536	400520 to 400599	All goods	6.0
537	400610	All goods	2.0
538	400690 to 400819	All goods	6.0
539	400829	All goods	6.0

540	400911	All goods	2.0
541	400912	All goods	0.0
542	400921	All goods	2.0
543	400922	All goods	0.0
544	400931	All goods	6.0
545	400932	All goods	0.0
546	400941 to 400942	All goods	6.0
547	401011 to 401031	All goods	0.0
548	401032	All goods	6.0
549	401033	All goods	2.0
550	401034 to 401035	All goods	6.0
551	401036	All goods	2.0
552	401039	All goods	0.0
553	401110 to 401120	All goods	6.0
554	401130	All goods	0.0
555	401140 to 401150	All goods	6.0
556	401161 to 401199	All goods	0.0
557	401211 to 401212	All goods	6.0
558	401213	All goods	0.0
559	401219 to 401290	All goods	6.0
560	401310 to 401320	All goods	0.0
561	401390	All goods	2.0
562	401410	All goods	0.0
563	401490 to 401692	All goods	0.0
564	401693	All goods	6.0
565	401694 to 401695	All goods	0.0
566	401699	All goods	6.0
567	4017	All goods	0.0
568	4101 to 4103	All goods	0.0
569	4104 to 4115	All goods	0.0
570	4201 to 4205	All goods	6.0
571	4206	All goods	2.0
572	4301 to 4302	All goods	0.0
573	4303 to 4304	All goods	0.0
574	4401 to 4403	All goods	0.0
575	4404 to 4405	All goods	0.0
576	4406	All goods	6.0
577	4407 to 4410	All goods	0.0
578	4411	All goods	2.0
579	4412 to 4421	All goods	0.0
580	45	All goods	0.0
581	46	All goods	0.0
582	4701 to 4706	All goods	0.0
583	470710	All goods	0.0
584	470720 to 470730	All goods	2.0
585	470790	All goods	0.0
586	4801	All goods	0.0
587	4802	All goods	0.0
588	4803	All goods	6.0
589	480411 to 480449	All goods	0.0
590	480451	All goods	2.0
591	480452 to 480525	All goods	0.0
592	480530	All goods	2.0
593	480540 to 480630	All goods	0.0
594	480640 to 480700	All goods	2.0

595	480810	All goods	0.0
596	48084010	All goods	2.0
597	48084090	All goods	0.0
598	481013	All goods	6.0
599	481014	All goods	2.0
600	481019 to 481022	All goods	0.0
601	481029 to 481032	All goods	2.0
602	481039 to 481099	All goods	0.0
603	481110	All goods	2.0
604	481141 to 481149	All goods	6.0
605	481151 to 481159	All goods	0.0
606	481160	All goods	2.0
607	481190 to 481690	All goods	0.0
608	481710	All goods	6.0
609	481720	All goods	0.0
610	481730	All goods	6.0
611	481810 to 481910	All goods	0.0
612	481920 to 481930	All goods	2.0
613	481940 to 482090	All goods	0.0
614	482210 to 482340	All goods	0.0
615	482361 to 482369	All goods	6.0
616	482370 to 482390	All goods	0.0
617	49011010	All goods	0.0
618	49011020 to 49019100	All goods	0.0
619	490199	All goods	6.0
620	4902	All goods	0.0
621	4903	All goods	0.0
622	4904 to 4906	All goods	0.0
623	4907	All goods	0.0
624	4908	All goods	6.0
625	4909 to 4910	All goods	0.0
626	491110	All goods	6.0
627	49119100 to 49119910	All goods	0.0
628	49119920	All goods	0.0
629	49119990	All goods	0.0
630	50010000 to 50020020	All goods	0.0
631	50020030 to 50030090	All goods	0.0
632	5004 to 5007	All goods	0.0
633	5101 to 5102	All goods	0.0
634	5103	All goods	0.0
635	510400 to 510521	All goods	0.0
636	51052910	All goods	5.0
637	51052990	All goods	2.0
638	510531 to 510620	All goods	0.0
639	510720	All goods	2.0
640	5108 to 5110	All goods	0.0
641	511111 to 511119	All goods	6.0
642	511120	All goods	2.0
643	511130	All goods	6.0
644	511190	All goods	2.0
645	511211 to 511219	All goods	6.0
646	511220	All goods	0.0
647	511230	All goods	6.0
648	511290 to 511300	All goods	0.0
649	5201	All goods	2.0

650	5202	All goods	3.0
651	5203	All goods	8.0
652	5204 to 5207	All goods	0.0
653	520812 to 520813	All goods	6.0
654	520819	All goods	0.0
655	520821 to 520831	All goods	6.0
656	520833 to 520843	All goods	6.0
657	520849	All goods	2.0
658	520851	All goods	6.0
659	520859	All goods	6.0
660	520911 to 520919	All goods	2.0
661	520921 to 520941	All goods	6.0
662	520943 to 521011	All goods	6.0
663	521019	All goods	2.0
664	521021 to 521029	All goods	6.0
665	521032 to 521039	All goods	6.0
666	521049 to 521059	All goods	6.0
667	521111 to 521119	All goods	2.0
668	521120 to 521225	All goods	6.0
669	5301	All goods	0.0
670	5302	All goods	0.0
671	5303	All goods	0.0
672	53050010 to 53050040	All goods	2.0
673	53050050	All goods	0.0
674	53050090	All goods other than sisal fibre, aloe fibre, other textile fibres of genus agave raw, ramie or chine grass	2.0
675	53050090	Sisal fibre, aloe fibre, other textile fibres of genus agave raw, ramie or chine grass	0.0
676	5306	All goods	2.0
677	5307	All goods	0.0
678	530810	All goods	2.0
679	530820 to 530890	All goods	0.0
680	530911 to 530919	All goods	6.0
681	530921 to 531090	All goods	0.0
682	5311	All goods	2.0
683	5401	All goods	2.0
684	540211 to 540219	All goods	6.0
685	540220	All goods	5.0
686	540231 to 540232	All goods	6.0
687	540233	All goods	5.0
688	540234 to 540239	All goods	6.0
689	540244	Elastomeric yarn of Nylon or other polyamides, untwisted or with a twist $\leq 50$ turns per mtr. single	6.0
690	540244	Elastomeric other yarn(other than of nylon or other polyamides or of polyester), single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per mtr.	2.0
691	54024400	Elastomeric yarn of polyesters	0.0
692	54024500	All goods	6.0
693	54024600	All goods	6.0
694	54024700	All goods	6.0
695	540248 to 540249	All goods	2.0
696	540251	All goods	6.0
697	540252	All goods	5.0
698	540259 to 540261	All goods	6.0
699	540262	All goods	5.0

700	540269	All goods	6.0
701	5403	All goods	0.0
702	540411 to 540419	All goods	6.0
703	540490	All goods	2.0
704	5405	All goods	0.0
705	54060010	All goods	2.0
706	54060020	All goods	0.0
707	54071016	All goods	6.0
708	54071026	All goods	6.0
709	54071036	All goods	6.0
710	54071046	All goods	6.0
711	54071096	All goods	6.0
712	540720 to 540730	All goods	0.0
713	540741 to 540742	All goods	2.0
714	540743	All goods	6.0
715	540744 to 540752	All goods	2.0
716	540753	All goods	6.0
717	540754 to 540772	All goods	2.0
718	540773	All goods	6.0
719	540774 to 540781	All goods	2.0
720	540783	All goods	6.0
721	540784	All goods	0.0
722	540791 to 540792	All goods	2.0
723	540793	All goods	6.0
724	540794 to 540822	All goods	2.0
725	540823	All goods	6.0
726	540824 to 540832	All goods	2.0
727	540833	All goods	6.0
728	540834	All goods	2.0
729	550110	All goods	2.0
730	550120	All goods	5.0
731	550130 to 550190	All goods	6.0
732	5502	All goods	0.0
733	550311 to 550319	All goods	2.0
734	55032000	All goods	6.0
735	550330 to 550340	All goods	6.0
736	550390	All goods	2.0
737	5504	All goods	0.0
738	550510	All goods	6.0
739	550520	All goods	0.0
740	550610	All goods	2.0
741	550620	All goods	5.0
742	550630 to 550690	All goods	6.0
743	5507	All goods	0.0
744	550810	All goods	6.0
745	550820 to 550912	All goods	0.0
746	550921 to 550922	All goods	2.0
747	550931 to 550932	All goods	6.0
748	550941 to 550942	All goods	0.0
749	550952 to 550953	All goods	2.0
750	550959	All goods	0.0
751	550961 to 550969	All goods	2.0
752	550991 to 550999	All goods	0.0
753	551020	All goods	0.0
754	551030	All goods	2.0

755	5511	All goods	2.0
756	5512	All goods	6.0
757	551312 to 551319	All goods	6.0
758	551323 to 551349	All goods	6.0
759	551412 to 551511	All goods	6.0
760	551513	All goods	6.0
761	551519 to 551521	All goods	2.0
762	551522	All goods	6.0
763	551529	All goods	0.0
764	551591	All goods	2.0
765	551599	All goods	0.0
766	551611	All goods	2.0
767	551612 to 551614	All goods	6.0
768	551621	All goods	2.0
769	551623 to 551624	All goods	6.0
770	551631	All goods	0.0
771	551632	All goods	2.0
772	551633	All goods	6.0
773	551634	All goods	2.0
774	551641 to 551644	All goods	6.0
775	551691	All goods	0.0
776	551692 to 551693	All goods	2.0
777	551694	All goods	0.0
778	560121 to 560122	All goods	0.0
779	560129	All goods	2.0
780	560130 to 560290	All goods	0.0
781	560311 to 560312	All goods	2.0
782	560313 to 560314	All goods	0.0
783	560391	All goods	2.0
784	560392	All goods	0.0
785	560393	All goods	2.0
786	560394 to 560410	All goods	0.0
787	560490	All goods other than imitation gut (nylon) for rackets and high tenacity yarn of polyesters of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated excluding imitation gut for racket	2.0
788	560490	Imitation gut (nylon) for rackets and high tenacity yarn of polyesters of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated excluding imitation gut for racket	0.0
789	560500 to 560749	All goods	0.0
790	5607	All goods, other than cordage, cable, rope and twine of jute and twine, cordage, rope and cables of other textiles bastfibres of heading no. 5303	2.0
791	56079090	Cordage, cable, rope and twine of jute and twine, cordage, rope and cables of other textiles bast fibres of heading no. 5303	0.0
792	560811	All goods	2.0
793	560819 to 560890	All goods	0.0
794	5609	All goods	2.0
795	5701 to 5702	All goods	2.0
796	570320 to 570390	All goods	2.0
797	5704 to 5705	All goods	0.0
798	580110 to 580127	All goods	0.0
799	580131 to 580132	All goods	2.0
800	580133 to 580190	All goods	0.0

801	580211 to 580219	All goods	2.0
802	580220 to 581100	All goods	0.0
803	5901	All goods	0.0
804	590210 to 590220	All goods	2.0
805	590290 to 590390	All goods	6.0
806	5904 to 5911	All goods	0.0
807	600110 to 600122	All goods	2.0
808	600129 to 600191	All goods	0.0
809	600192	All goods	2.0
810	600199 to 600310	All goods	0.0
811	600320 to 600330	All goods	2.0
812	600340 to 600490	All goods	0.0
813	600521 to 600522	All goods	2.0
814	600523	All goods	0.0
815	600524	All goods	2.0
816	600531 to 600533	All goods	0.0
817	600534	All goods	2.0
818	600541 to 600543	All goods	0.0
819	600544	All goods	2.0
820	600590	All goods	0.0
821	600610	All goods	0.0
822	600621 to 600632	All goods	0.0
823	600633 to 600690	All goods	0.0
824	6101	All goods	0.0
825	610220 to 610331	All goods	0.0
826	610332	All goods	6.0
827	610333	All goods	2.0
828	610339 to 610341	All goods	0.0
829	610342 to 610343	All goods	2.0
830	610349	All goods	0.0
831	610413	All goods	6.0
832	610419	All goods	0.0
833	610422 to 610423	All goods	6.0
834	610429 to 610431	All goods	0.0
835	610432	All goods	6.0
836	610433 to 610441	All goods	0.0
837	610442	All goods	6.0
838	610444 to 610451	All goods	0.0
839	610459 to 610461	All goods	0.0
840	610469	All goods	0.0
841	610590	All goods	2.0
842	610690	All goods	2.0
843	610719	All goods	0.0
844	610721 to 610722	All goods	6.0
845	610729	All goods	0.0
846	610791	All goods	6.0
847	610799 to 610819	All goods	0.0
848	610829	All goods	0.0
849	610831 to 610832	All goods	6.0
850	610839	All goods	0.0
851	610899	All goods	0.0
852	611012 to 611019	All goods	0.0
853	6111	All goods other than babies' garments etc. of wool or fine animal hair	6.0
854	61119090	Babies' garments etc. of wool or fine animal hair	0.0

855	611211 to 611212	All goods	6.0
856	611219	All goods	0.0
857	611220 to 611231	All goods	2.0
858	611239	All goods	0.0
859	611241	All goods	2.0
860	611249 to 611300	All goods	0.0
861	611420 to 611430	All goods	6.0
862	611490 to 611529	All goods	0.0
863	611530	All goods	2.0
864	611594	All goods	0.0
865	611595 to 611596	All goods	2.0
866	611599 to 611691	All goods	0.0
867	611692 to 611693	All goods	6.0
868	611699	All goods	2.0
869	611710	All goods	6.0
870	611780 to 611790	All goods	0.0
871	620111	All goods	0.0
872	620112 to 620113	All goods	6.0
873	620119 to 620211	All goods	0.0
874	620212	All goods	2.0
875	620219 to 620291	All goods	0.0
876	620292	All goods	2.0
877	620299	All goods	0.0
878	620311 to 620312	All goods	6.0
879	620319	All goods	0.0
880	620322 to 620323	All goods	6.0
881	620329	All goods	0.0
882	620331	All goods	6.0
883	620343	All goods	6.0
884	620411 to 620412	All goods	6.0
885	620421	All goods	0.0
886	620422 to 620423	All goods	2.0
887	620429 to 620431	All goods	0.0
888	620432	All goods	6.0
889	620441	All goods	0.0
890	620449 to 620451	All goods	0.0
891	620452 to 620453	All goods	2.0
892	620459	All goods	0.0
893	620461	All goods	6.0
894	620463	All goods	6.0
895	62059090	Men's or boy's shirts of wool or fine animal hair	0.0
896	620610 to 620620	All goods	0.0
897	620690	All goods	0.0
898	620719 to 620722	All goods	2.0
899	620729	All goods	0.0
900	620791	All goods	2.0
901	620799 to 620811	All goods	0.0
902	620819	All goods	2.0
903	620821 to 620822	All goods	6.0
904	620829	All goods	0.0
905	620891	All goods	6.0
906	620899	All goods	0.0
907	620920 to 620930	All goods	2.0
908	620990 to 621010	All goods	0.0
909	621030	All goods	0.0



910	621111 to 621120	All goods	0.0
911	621139	All goods	0.0
912	621142 to 621143	All goods	2.0
913	621149	All goods	0.0
914	621290 to 621310	All goods	0.0
915	621320 to 621390	All goods ,other than Handkerchiefs of silk or silk waste	2.0
916	62139090	Handkerchiefs of silk or silk waste	0.0
917	621410 to 621420	All goods	0.0
918	621430	All goods	2.0
919	621440	All goods	0.0
920	621490	All goods	2.0
921	6215	All goods	6.0
922	6216 to 6217	All goods	2.0
923	630110	All goods	0.0
924	630130	All goods	0.0
925	630190 to 630210	All goods	2.0
926	630222	All goods	6.0
927	630229	All goods	0.0
928	630232	All goods	6.0
929	630239	All goods	0.0
930	630240 to 630251	All goods	6.0
931	630253	All goods	2.0
932	630259	All goods	0.0
933	630291 to 630299	All goods	0.0
934	6302312	All goods	2.0
935	630319	All goods	0.0
936	630391 to 630392	All goods	2.0
937	630399	All goods	0.0
938	630411 to 630419	All goods	6.0
939	630491	All goods	0.0
940	630492 to 630493	All goods	6.0
941	630499 to 630800	All goods	0.0
942	6309	All goods	6.0
943	6310	All goods	0.0
944	640110 to 640212	All goods	6.0
945	640220 to 640299	All goods	6.0
946	640312	All goods	2.0
947	640319 to 640391	All goods, other than Footwear made on a base or platform of wood not having an inner sole or a protective metal toe-cap	6.0
948	64039190	Footwear made on a base or platform of wood not having an inner sole or a protective metal toe-cap	2.0
949	640399	All goods, other than Footwear made on a base or platform of wood not having an inner sole or a protective metal toe-cap and not covering ankle	6.0
950	64039990	Footwear made on a base or platform of wood not having an inner sole or a protective metal toe-cap and not covering ankle	2.0
951	6404 to 6406	All goods	6.0
952	65	All goods	0.0
953	66	All goods	0.0
954	670100 to 670210	All goods	0.0
955	670290	All goods	6.0
956	6703 to 6704	All goods	0.0
957	68010000 to 68132010	All goods	0.0

958	68132090	All goods	6.0
959	681381	All goods	0.0
960	681389	All goods	6.0
961	6814 to 6815	All goods	0.0
962	6901	All goods	0.0
963	6902 to 6903	All goods	0.0
964	6904 to 6905	All goods	0.0
965	6906	All goods	6.0
966	6907 to 6908	All goods	0.0
967	690911	All goods	2.0
968	690912 to 690990	All goods	0.0
969	691010	All goods	6.0
970	691090 to 691190	All goods	0.0
971	6912	All goods	6.0
972	691310	All goods	2.0
973	691390 to 691490	All goods	0.0
974	70010010	All goods	0.0
975	70010020 to 70051090	All goods	0.0
976	700521 to 700530	All goods	6.0
977	700600 to 700711	All goods	0.0
978	700719	All goods	6.0
979	700729	All goods	6.0
980	7008	All goods	2.0
981	7009	All goods	6.0
982	701010 to 701110	All goods	0.0
983	701120	All goods	2.0
984	701190 to 701322	All goods	0.0
985	701328	All goods	6.0
986	701333	All goods	0.0
987	701337	All goods	6.0
988	701341 to 701342	All goods	0.0
989	701349	All goods	6.0
990	701391 to 701690	All goods	0.0
991	701710	All goods	0.0
992	701720 to 701820	All goods	0.0
993	701890	All goods	6.0
994	7019	All goods	0.0
995	70200011	All goods	0.0
996	70200012 to 70200019	All goods	0.0
997	70200021	All goods	0.0
998	70200029 to 70200090	All goods	0.0
999	710110	All goods	0.0
1000	710121 to 710210	All goods	0.0
1001	710221	All goods	0.0
1002	710229	All goods	0.0
1003	710231	All goods	0.0
1004	710239	All goods	0.0
1005	710310	All goods	0.0
1006	710391	All goods	0.0
1007	710399 to 711890	All goods	0.0
1008	72	All goods	0.0
1009	730110 to 731814	All goods	0.0
1010	731815	All goods	6.0
1011	731816	All goods	0.0
1012	731819	All goods	6.0

1013	731821 to 732020	All goods	0.0
1014	732111 to 732620	All goods	0.0
1015	732690	All goods	6.0
1016	7401 to 7402	All goods	0.0
1017	740312 to 740329	All goods	0.0
1018	7404	All goods	5.0
1019	7405 to 7406	All goods	0.0
1020	740721 to 740729	All goods	0.0
1021	740819	All goods	2.0
1022	740821 to 740829	All goods	0.0
1023	740911	All goods	5.0
1024	740919 to 741022	All goods	0.0
1025	7411	All goods	0.0
1026	741210	All goods	5.0
1027	741220	All goods	0.0
1028	7413	All goods	6.0
1029	7415 to 7418	All goods	0.0
1030	741910	All goods	2.0
1031	741991 to 741999	All goods	0.0
1032	75	All goods	0.0
1033	760120 to 760529	All goods	0.0
1034	760612 to 760720	All goods	0.0
1035	7608 to 7609	All goods	0.0
1036	7610 to 7612	All goods	0.0
1037	7613	All goods	2.0
1038	7614 to 7616	All goods	0.0
1039	7801 to 7804	All goods	0.0
1040	7806	All goods	0.0
1041	7901 to 7905	All goods	0.0
1042	7907	All goods	0.0
1043	8001 to 8003	All goods	0.0
1044	8007	All goods	0.0
1045	810110 to 810197	All goods	0.0
1046	810199	All goods	2.0
1047	8102 to 8105 (except 810299, 810390, 81049090 and 810590)	All goods	0.0
1048	810299	All goods	0.0
1049	810390	All goods	0.0
1050	81049090	All goods	0.0
1051	810590	All goods	2.0
1052	8106 (except 81060090)	All goods	0.0
1053	81060090	All goods	0.0
1054	8107 (except 81079090)	All goods	0.0
1055	81079090	All goods	0.0
1056	8108 (except 81089090)	All goods	0.0
1057	81089090	All goods	0.0
1058	8109 (except 810990)	All goods	0.0
1059	810990	All goods	0.0
1060	8110 (except 811090)	All goods	0.0
1061	811090	All goods	0.0
1062	8111 (except 81110090)	All goods	0.0
1063	81110090	All goods	0.0
1064	811212 to 811213	All goods	0.0
1065	811219	All goods	2.0
1066	811221 to 811222	All goods	0.0

1067	811229	All goods	0.0
1068	811251 to 811252	All goods	0.0
1069	811259	All goods	0.0
1070	811292	All goods	0.0
1071	811299 to 811300	All goods	0.0
1072	820110 to 820210	All goods	0.0
1073	820220	All goods	2.0
1074	820231 to 820600	All goods	0.0
1075	820713	All goods	2.0
1076	820719	All goods	0.0
1077	820720	All goods	2.0
1078	820730 to 820890	All goods	0.0
1079	8209	All goods	2.0
1080	8210 to 8212	All goods	0.0
1081	8213	All goods	2.0
1082	8214 to 8215	All goods	0.0
1083	830110	All goods	0.0
1084	830130 to 830210	All goods	0.0
1085	830220	All goods	2.0
1086	830241 to 830629	All goods	0.0
1087	830630	All goods	2.0
1088	8307 to 8309	All goods	0.0
1089	8310	All goods	2.0
1090	831110	All goods	0.0
1091	831120	All goods	2.0
1092	831130 to 831190	All goods	0.0
1093	8401 to 8404	All goods	0.0
1094	840510	All goods	2.0
1095	840590 to 840682	All goods	0.0
1096	840690	All goods	2.0
1097	840710	All goods	0.0
1098	843721	All goods	0.0
1099	840729 to 840731	All goods	0.0
1100	840790	All goods	2.0
1101	840810	All goods	0.0
1102	840820	All goods	5.0
1103	840890	All goods	0.0
1104	840910	All goods	0.0
1105	840991	All goods	0.0
1106	8410 to 8411 (except 841191)	All goods	0.0
1107	841191	All goods	2.0
1108	841210	All goods	2.0
1109	841221	All goods	0.0
1110	841229	All goods	2.0
1111	841231	All goods	0.0
1112	841239	All goods	2.0
1113	841280 to 841290	All goods	0.0
1114	84131110	All goods	0.0
1115	84131191 to 84131199	All goods	0.0
1116	84131910	All goods	0.0
1117	84131990	All goods	0.0
1118	841320	All goods	0.0
1119	841340	All goods	2.0
1120	841350	All goods	0.0
1121	841360	All goods	2.0

1122	841370	All goods	5.0
1123	841381	All goods	2.0
1124	84138200 to 84139130	All goods	0.0
1125	84139140	All goods	0.0
1126	84139190	All goods	0.0
1127	841392	All goods	2.0
1128	841410	All goods	0.0
1129	84142010 to 84142020	All goods	0.0
1130	84142090	All goods	0.0
1131	841430 to 841440	All goods	5.0
1132	84145110 to 84145130	All goods	6.0
1133	84145140 to 84145190	All goods	5.0
1134	84145910	All goods	2.0
1135	84145920	All goods	2.0
1136	84145930 to 84146000	All goods	2.0
1137	84149011	All goods	0.0
1138	84149012	All goods	0.0
1139	84149019 to 84149020	All goods	0.0
1140	84149030	All goods	0.0
1141	84149040 to 84149090	All goods	0.0
1142	841510	All goods	6.0
1143	841581 to 841583	All goods	6.0
1144	841590	All goods	0.0
1145	841610 to 841720	All goods	0.0
1146	841780	All goods	5.0
1147	841790	All goods	0.0
1148	84181010	All goods	5.0
1149	84181090	All goods	6.0
1150	841821	All goods	0.0
1151	841829	All goods	6.0
1152	84183010	All goods	5.0
1153	84183090	All goods	6.0
1154	841840	All goods	0.0
1155	841850 to 841861	All goods	5.0
1156	84186910	All goods	0.0
1157	84186920 to 84186930	All goods	0.0
1158	84186940 to 84189900	All goods	0.0
1159	84191110	All goods	0.0
1160	84191190	All goods	0.0
1161	84191910	All goods	0.0
1162	84191920 to 84193200	All goods	0.0
1163	841939	All goods	5.0
1164	841940	All goods	2.0
1165	841950	All goods	5.0
1166	841960	All goods	0.0
1167	841981	All goods	2.0
1168	841989 (except 84198970)	All goods	0.0
1169	84198970	All goods	0.0
1170	84199010	All goods	0.0
1171	84199090 to 84211930	All goods	0.0
1172	84211940	All goods	0.0
1173	84211950 to 84211991	All goods	0.0
1174	84211999	All goods	0.0
1175	842121	All goods	2.0
1176	842122	All goods	0.0

1177	842129	All goods	2.0
1178	842139	All goods	5.0
1179	842191 to 842199	All goods	0.0
1180	842211	All goods	2.0
1181	842219 to 842220	All goods	0.0
1182	842230 to 842240	All goods	0.0
1183	84229010	All goods	0.0
1184	84229020	All goods	0.0
1185	84229090	All goods	0.0
1186	842310	All goods	0.0
1187	842320 to 842382	All goods	0.0
1188	842389	All goods	2.0
1189	84239010	All goods	0.0
1190	84239020	All goods	0.0
1191	842410	All goods	2.0
1192	842420 to 842481	All goods	0.0
1193	842489	All goods	2.0
1194	842490 to 842541	All goods	0.0
1195	842542	All goods	5.0
1196	842549	All goods	2.0
1197	842611 to 842710	All goods	0.0
1198	842720	All goods	2.0
1199	842790 to 842810	All goods	0.0
1200	842820	All goods	2.0
1201	842831 to 842833	All goods	0.0
1202	842839	All goods	2.0
1203	842840 to 842930	All goods	0.0
1204	842940	All goods	2.0
1205	842951	All goods	0.0
1206	842952 to 842959	All goods	2.0
1207	843010 to 843031	All goods	0.0
1208	843039	All goods	2.0
1209	843041 to 843110	All goods	0.0
1210	843120	All goods	2.0
1211	843131 to 843790 (except 84331190 ,84331990 and 843621)	All goods	0.0
1212	84331190	All goods	0.0
1213	84331990	All goods	0.0
1214	843621	All goods	0.0
1215	843810	All goods	2.0
1216	843820 to 843890	All goods	0.0
1217	843910 to 843991	All goods	0.0
1218	843999 to 844010	All goods	2.0
1219	844090	All goods	0.0
1220	844110	All goods	2.0
1221	844120 to 844140	All goods	0.0
1222	844180	All goods	2.0
1223	844190 to 844312	All goods	0.0
1224	844313	All goods	2.0
1225	844314 to 844317	All goods	0.0
1226	844319	All goods	2.0
1227	844331 to 844332	All goods	0.0
1228	84433910	All goods	2.0
1229	84433920	All goods	0.0

1230	84433930	All goods	0.0
1231	84433940	All goods	0.0
1232	84433950 to 84433970	All goods	0.0
1233	84433990	All goods	2.0
1234	844391	All goods	0.0
1235	84439910 to 84439959	All goods	0.0
1236	84439960 to 84454090	All goods	0.0
1237	844590	All goods	2.0
1238	844610	All goods	0.0
1239	844621	All goods	2.0
1240	844629 to 844900	All goods	0.0
1241	845011	All goods	6.0
1242	845012 to 845019	All goods	0.0
1243	845020	All goods	0.0
1244	84509010	All goods	0.0
1245	84509090 to 84511090	All goods	0.0
1246	845121	All goods	0.0
1247	845129	All goods	2.0
1248	84513010	All goods	0.0
1249	84513090 to 84514099	All goods	0.0
1250	845150 to 845190	All goods	2.0
1251	845210	All goods	6.0
1252	845221 to 845229	All goods	0.0
1253	84523010	All goods	2.0
1254	84523090	All goods	2.0
1255	84529011 to 84529019	All goods	0.0
1256	84529091	All goods	0.0
1257	84529099 to 84563000	All goods	0.0
1258	84569010	All goods	0.0
1259	84569020 to 84592100	All goods	0.0
1260	845929	All goods	2.0
1261	845931 to 845951	All goods	0.0
1262	845959 to 845961	All goods	2.0
1263	845969 to 846021	All goods	0.0
1264	846029	All goods	2.0
1265	846031 to 846040	All goods	0.0
1266	846090 to 846120	All goods	2.0
1267	846130 to 846140	All goods	0.0
1268	846150 to 846190	All goods	2.0
1269	846210 to 846591	All goods	0.0
1270	846592 to 846593	All goods	2.0
1271	846594 to 846691	All goods	0.0
1272	846692	All goods	2.0
1273	846693 to 846694	All goods	0.0
1274	846711 to 846719	All goods	2.0
1275	846721	All goods	0.0
1276	846722	All goods	2.0
1277	846729	All goods	0.0
1278	846781	All goods	2.0
1279	846789 to 846890	All goods	0.0
1280	84690010	All goods	0.0
1281	84690020	All goods	2.0
1282	84690030 to 84690040	All goods	0.0
1283	84690090	All goods	0.0
1284	8470 to 8471	All goods	0.0

1285	847210 to 847230	All goods	0.0
1286	84729010	All goods	0.0
1287	84729020	All goods	0.0
1288	84729030	All goods	0.0
1289	84729040 to 84729090	All goods	0.0
1290	847310	Printed circuit assemblies of word processing machines	0.0
1291	847310	All goods, other than Printed circuit assemblies of word processing machines	2.0
1292	847321 to 847330	All goods	0.0
1293	84734010	All goods	2.0
1294	84734090	All goods	0.0
1295	847350	All goods	0.0
1296	847410	All goods	0.0
1297	847420	All goods	2.0
1298	847431 to 847621	All goods	0.0
1299	847629	All goods	2.0
1300	847681 to 847690	All goods	0.0
1301	847710	All goods	0.0
1302	847720 to 847780	All goods	0.0
1303	847790	All goods	0.0
1304	847810	All goods	0.0
1305	847890	All goods	2.0
1306	847910	All goods	0.0
1307	847920	All goods	2.0
1308	847930	All goods	0.0
1309	847940	All goods	0.0
1310	847950	All goods	2.0
1311	847960	All goods	0.0
1312	847971 to 847979	All goods	0.0
1313	84798100 to 84798992	All goods	0.0
1314	84798999	All goods	0.0
1315	84799010 to 84799040	All goods	0.0
1316	84799090	All goods	0.0
1317	848010 to 848050	All goods	0.0
1318	848060	All goods	2.0
1319	848071 to 848079	All goods	0.0
1320	848110	All goods	2.0
1321	848120	All goods	0.0
1322	848130 to 848140	All goods	2.0
1323	848180 to 848299	All goods	0.0
1324	848330	All goods	0.0
1325	848350 TO 848410	All goods	5.0
1326	848420	All goods	0.0
1327	848490	All goods	5.0
1328	8486	All goods	0.0
1329	8487	All goods	2.0
1330	850120	All goods	0.0
1331	850133 to 850134	All goods	0.0
1332	850140	All goods	5.0
1333	850151	All goods	0.0
1334	850152	All goods	5.0
1335	850153	All goods	0.0
1336	850161	All goods	2.0
1337	850162 to 850164	All goods	0.0



1338	850211	All goods	0.0
1339	850212 to 850213	All goods	0.0
1340	85022010	All goods	2.0
1341	85022090	All goods	2.0
1342	850231	All goods	0.0
1343	850239	All goods	2.0
1344	850240 to 850300	All goods	0.0
1345	850410	All goods	5.0
1346	850421	All goods	2.0
1347	850422 to 850423	All goods	0.0
1348	850431 to 850432	All goods	0.0
1349	850433 to 850434	All goods	0.0
1350	85044010	All goods	6.0
1351	85044021	All goods	5.0
1352	85044029	All goods	5.0
1353	85044030	All goods	6.0
1354	85044040	All goods	6.0
1355	85044090	All goods	5.0
1356	850450	All goods	0.0
1357	850490	All goods	2.0
1358	850511 to 850520	All goods	0.0
1359	850590	All goods other than electromagnetic lifting heads	2.0
1360	850590	Electromagnetic lifting heads	0.0
1361	850610 to 850650	All goods	0.0
1362	850660 to 850690	All goods	2.0
1363	850710	All goods	0.0
1364	850720	All goods	2.0
1365	850730	All goods	0.0
1366	850740 to 850819	All goods, Other than Industrial vacuum cleaners	2.0
1367	850819	Industrial vacuum cleaners	0.0
1368	850860	All goods	0.0
1369	850870	Parts of domestic vacuum cleaners	2.0
1370	850870	Parts of industrial vacuum cleaners	0.0
1371	850940	All goods	6.0
1372	850980	All goods	0.0
1373	850990 to 851010	All goods	2.0
1374	851020 to 851090	All goods	0.0
1375	851110	All goods	5.0
1376	851190	All goods	5.0
1377	85121000 to 85122020	All goods	0.0
1378	85122090	All goods	0.0
1379	85123010	All goods	2.0
1380	85123090	All goods	2.0
1381	851290	All goods	5.0
1382	85131010	All goods	6.0
1383	85131020 to 85139000	All goods	5.0
1384	851410	All goods	0.0
1385	851420	All goods, other than Inductance or dielectric furnaces or ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	0.0
1386	851420	Inductance or dielectric furnaces or ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	0.0
1387	85143010	All goods	0.0
1388	85143090 to 85144000	All goods	0.0
1389	851490	All goods	0.0

1390	851511 to 851519	All goods	2.0
1391	851521 to 851529	All goods	0.0
1392	851531 to 851539	All goods	2.0
1393	851580 to 851590	All goods	0.0
1394	851610	All goods	6.0
1395	851621	All goods	0.0
1396	851629	All goods	6.0
1397	851631	All goods	2.0
1398	851632	All goods	0.0
1399	851633	All goods	2.0
1400	851640	All goods	6.0
1401	851650	All goods	0.0
1402	851660 to 851672	All goods	6.0
1403	851679	All goods	0.0
1404	851680 to 851690	All goods	2.0
1405	8517	All goods	0.0
1406	851810	All goods	0.0
1407	851821 to 851829	All goods, other than (Loudspeakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter not exceeding 50 cm, for telecommunication use - cone type and other than cone type)	2.0
1408	851829	Loudspeakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter not exceeding 50 cm, for telecommunication use - cone type other than cone type	0.0
1409	851830	All goods	0.0
1410	851840	All goods	2.0
1411	851850	All goods	6.0
1412	851890	All goods	2.0
1413	851920 to 851930	All goods	0.0
1414	851950	All goods	0.0
1415	85198100 to 85198930	All goods	0.0
1416	85198940	All goods	0.0
1417	85198990 to 85211099	All goods	0.0
1418	852190	All goods	2.0
1419	852210 to 852351	All goods	0.0
1420	85235210 to 85235910	All goods	0.0
1421	85235990 to 85238010	All goods	0.0
1422	85238020	All goods	0.0
1423	85238030 to 85238090	All goods	0.0
1424	85255010 to 85255040	All goods	0.0
1425	85255050	All goods	0.0
1426	85255090	All goods	0.0
1427	852560	All goods	0.0
1428	852580	All goods	2.0
1429	852610	All goods	0.0
1430	852691 to 852692	All goods	2.0
1431	852712 to 852792	All goods	0.0
1432	85279911	All goods	0.0
1433	85279912 to 85286100	All goods	0.0
1434	852869	All goods, other than Color video projectors and video projectors Black and White or other monochrome	2.0
1435	852869	Color video projectors and video projectors Black and White or other monochrome	0.0

1436	852871 to 852873	All goods	2.0
1437	85291011 to 85291012	All goods	0.0
1438	85291019	All goods	0.0
1439	85291021	All goods	0.0
1440	85291022	All goods	0.0
1441	85291029	All goods	0.0
1442	85291091 to 85291092	All goods	0.0
1443	85291092	All goods	0.0
1444	85291099	All goods	0.0
1445	85299010 to 85299020	All goods	0.0
1446	85299090	All goods	0.0
1447	853010 to 853080	All goods	0.0
1448	853090	All goods	2.0
1449	853110	All goods	6.0
1450	853120	All goods	0.0
1451	853180 to 853190	All goods	0.0
1452	8532 to 8534	All goods	0.0
1453	853510	All goods	5.0
1454	853521 to 853530	All goods	0.0
1455	853540	All goods	2.0
1456	853590	All goods	5.0
1457	85361010	All goods	2.0
1458	85361020 to 85363000	All goods	2.0
1459	853641	All goods	2.0
1460	853649	All goods	2.0
1461	85365010	All goods	0.0
1462	85365020	All goods	0.0
1463	85365090	All goods	0.0
1464	853661	All goods	2.0
1465	85366910	All goods	0.0
1466	85366990	All goods	0.0
1467	853670	All goods	5.0
1468	85369010 to 85369030	All goods	5.0
1469	85369090	All goods	0.0
1470	853710	All goods	2.0
1471	853720 to 853810	All goods	0.0
1472	853890	All goods	2.0
1473	853910 to 853921	All goods	2.0
1474	853922	All goods	0.0
1475	853929 to 853931	All goods	2.0
1476	853932	All goods	0.0
1477	853939	All goods	2.0
1478	853941 to 853949	All goods	0.0
1479	853990	All goods	6.0
1480	854011 to 854012	All goods	2.0
1481	854020	All goods	0.0
1482	85404010	All goods	0.0
1483	85404020	All goods	0.0
1484	854060	All goods	2.0
1485	854071 to 854099	All goods	0.0
1486	854110 to 854233	All goods	0.0
1487	854239	All goods	0.0
1488	85429000 to 85431010	All goods	0.0
1489	85431020 to 85432090	All goods	0.0
1490	85433000 to 85437011	All goods	0.0

1491	85437012 to 85437099	All goods	0.0
1492	854390	All goods	0.0
1493	854411 to 854419	All goods	5.0
1494	854420	All goods	2.0
1495	854442 to 854449	All goods	0.0
1496	854460	All goods	2.0
1497	854470	All goods	0.0
1498	854511 to 854519	All goods	0.0
1499	854520	All goods	5.0
1500	854590 to 854790	All goods	0.0
1501	8548	All goods	0.0
1502	8601 to 8608	All goods	0.0
1503	8609	All goods	2.0
1504	8701	All goods	0.0
1505	870310	All goods	0.0
1506	870410	All goods	0.0
1507	870432 to 870530	All goods	0.0
1508	870540	All goods	2.0
1509	870590	All goods	0.0
1510	870710 to 870810	All goods	0.0
1511	870840	All goods	0.0
1512	870850	Non- drive axles and parts thereof	0.0
1513	870850	Parts of Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components	6.0
1514	870870	All goods	6.0
1515	870880	Parts of Suspension shock-absorbers	6.0
1516	870891	All goods	2.0
1517	870892	Parts of Silencers and exhaust pipes	6.0
1518	870894	Parts of Steering wheels, steering columns and steering boxes	6.0
1519	870895 to 870899	All goods	6.0
1520	870911 to 870919	All goods	0.0
1521	870990	All goods	6.0
1522	8710	All goods	0.0
1523	871110	All goods	13.0
1524	871130	All goods	13.0
1525	871150 to 871190	All goods	0.0
1526	8712	All goods	6.0
1527	87131010 to 87141010	All goods	0.0
1528	871420 to 871496	All goods	0.0
1529	871499	All goods	2.0
1530	871500 to 871631	All goods	0.0
1531	871639	All goods	2.0
1532	871640 to 871680	All goods	0.0
1533	871690	All goods	6.0
1534	880100 to 880212	All goods	0.0
1535	880220 to 880240	All goods	0.0
1536	880260	All goods	0.0
1537	880310 to 880330	All goods	0.0
1538	880390 to 880529	All goods	0.0
1539	8901	All goods	0.0
1540	89020010	All goods	0.0
1541	89020090 to 89040000	All goods	0.0
1542	890510	All goods	0.0
1543	890520 to 890790	All goods	0.0

1544	8908	All goods	0.0
1545	900110 to 900140	All goods	0.0
1546	900150	All goods	2.0
1547	900190 to 900691	All goods	0.0
1548	900699	All goods	2.0
1549	90071010 to 90085020	All goods	0.0
1550	90085030	All goods	2.0
1551	90085040 to 90089000	All goods	0.0
1552	901010 to 901050	All goods	0.0
1553	901060	All goods	0.0
1554	901090 to 901110	All goods	0.0
1555	901120 to 901180	All goods	0.0
1556	901190 to 901290	All goods	0.0
1557	90131010	All goods	0.0
1558	90131020 to 90132000	All goods	0.0
1559	90138010	All goods	0.0
1560	90138090	All goods	0.0
1561	90139010	All goods	0.0
1562	90139090 to 90152000	All goods	0.0
1563	901530	All goods	2.0
1564	901540	All goods	0.0
1565	901590	All goods	0.0
1566	901600 to 901710	All goods	0.0
1567	90172010	All goods	0.0
1568	90172020 to 90179000	All goods	0.0
1569	901811 to 901820	All goods	0.0
1570	901831 to 901839	All goods	2.0
1571	901841 to 902290	All goods	0.0
1572	9023	All goods	0.0
1573	9024	All goods	0.0
1574	90251110	All goods	0.0
1575	90251190	All goods	0.0
1576	90251910	All goods	0.0
1577	90251920 to 90259000	All goods	0.0
1578	9026	All goods	0.0
1579	902710	All goods	0.0
1580	902720 to 902790	All goods	0.0
1581	902810 to 902820	All goods	0.0
1582	902830	All goods	6.0
1583	902890	All goods	0.0
1584	90291010	All goods	6.0
1585	90291090	All goods	5.0
1586	902990	All goods	2.0
1587	903010 to 903020	All goods	0.0
1588	903031	All goods	2.0
1589	903032 to 903039	All goods	0.0
1590	903040 to 903082	All goods	0.0
1591	903084 to 903089	All goods	0.0
1592	90309010	All goods	2.0
1593	90309090	All goods	0.0
1594	903110 to 903120	All goods	0.0
1595	903141	All goods	0.0
1596	903149	All goods	0.0
1597	903180	All goods	2.0
1598	903210	All goods	2.0

1599	903220 to 903281	All goods	0.0
1600	903289 to 903290	All goods	2.0
1601	9033	All goods	0.0
1602	91	All goods	0.0
1603	92	All goods	0.0
1604	93	All goods	0.0
1605	940110	All goods	0.0
1606	940120	All goods	6.0
1607	940130 to 940159	All goods	0.0
1608	940161	All goods	2.0
1609	940169 to 940180	All goods	0.0
1610	940190 to 940210	All goods	2.0
1611	940290 to 940320	All goods	0.0
1612	940330	All goods	6.0
1613	940340	All goods	0.0
1614	940350 to 940360	All goods	2.0
1615	940370	All goods	6.0
1616	940381 to 940591	All goods	0.0
1617	940592	All goods	2.0
1618	940599 to 940600	All goods	0.0
1619	950300 to 950691	All goods	0.0
1620	9507 to 9508	All goods	0.0
1621	9601 to 9607	All goods	0.0
1622	960810	All goods	6.0
1623	960820 to 960891	All goods	0.0
1624	960899	All goods	2.0
1625	9609 to 9611	All goods	0.0
1626	961210	All goods	2.0
1627	961220 to 961900	All goods	0.0
1628	9701 to 9703	All goods	0.0
1629	9704	All goods	0.0
1630	9705 to 9706	All goods	0.0”

2. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of January, 2015.

[F. No. 354/43/2009-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 53/2011-Customs, dated the 1st July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 499 (E), dated the 1st July, 2011 and was last amended vide notification No. 56/2013-Customs, dated the 31st December, 2013 and was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 816 (E), dated the 31st of December, 2013.